# BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LTD. (Corporate Identity Number : L67120DL1992PLC049038)



Regd. Office: 503, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 Tel.: 011-49800900 • E-mail: commodities@bharatbhushan.com

Website: www.bbinvestments.in

REF: BBFCB/BSE/2025-26 July 19, 2025

To,

BSE Ltd., Corporate Relationship Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai- 400001

**SCRIP CODE: 511501** 

Dear Sir/Madam,

## Sub: Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited|| Right Issue || Post Issue Advertisement

This is to inform that the Rights Issue Committee, at their meeting held on 16th July 2025, had inter-alia, approved the allotment of 33,80,400 fully paid-up Equity Shares of Face Value of Rs. 10/- each on Rights Basis to the eligible shareholders and/ or renouncee(s) in terms of the Letter of Offer at an issue price of Rs. 10/- per Equity Share.

With regard to above, please find enclosed extracts of the newspaper publication of the advertisement which was published today i.e. Saturday, 19th July 2025, in compliance with Regulation 92(1) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement (Regulations) 2018 (amended), pertaining to the basis of allotment of the above shares as per details mentioned below:

- 1. Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)
- 3. Prathakaal (Marathi)

This intimation is also being uploaded on the Company's website at: <a href="https://www.bharatbhushan.com/Static/Downloadnew.aspx">https://www.bharatbhushan.com/Static/Downloadnew.aspx</a>

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For and on behalf of Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited

Baldev Garg Company Secretary M. No. A73249

**FINANCIAL EXPRESS** 



### SHRIRAM FINANCE LIMITED

Corporate Identity No. (CIN): L65191TN1979PLC007874

Website: www.shriramfinance.in

(Rs. in crores)

(Rs. in crores)

Registered Office: Sri Towers Plot No. 14A, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai – 600 032, Tamil Nadu, India. Tel: 044 485 24 666 Fax: 044 485 25 666. Email id: customersupport@shriramfinance.in Toll free No.: 18001034959

Note: Brief particulars of Contingent Liabilities (A) Contingent liabilities

	Particulars	As at March 31, 2025								
a.	In respect of Income tax demands where the Company has filed appeal before various authorities	104.10								
b.	VAT demand where the Company has filed appeal before various appellates	2.52								
C.	Service tax demands where the Company has filed appeal before various authorities	2,840.87								
d.	GST demand where company has filed appeals	37.66								
e.	Stamp duty demand raised by District Registrar office against which company has filed appeal	6.69								
	Total	2,991.84								
/D\ Con	2) Commitments not provided for									

(B) Commitments not provided for

<u>'IMPORTANT'</u>

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a result of

transactions with companies

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

agreements with advertisers

or otherwise acting on an

advertisement in

manner whatsoever.

entering into any

	Particulars Particulars	As at March 31, 2025	
a.	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account, net of advances	29.66	
b.	Commitments related to loans sanctioned but undrawn	218.85	
		-	П

I. (A) The amount which the Company can raise by way of deposits (1.5 times of Net Owned Funds) (B) The aggregate of public deposits held on 31.03.2025

The Company has no overdue deposits other than unclaimed deposits.

The Company hereby declares that:

The Company has complied with the applicable provisions of the RBI Directions;

The compliance with the Directions does not imply that the repayment of deposits is guaranteed by the Reserve Bank of India;

The deposits accepted by the Company are unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities. The Company is not in default in the repayment of deposits or interest thereon.

> By Order of the Board For Shriram Finance Limited

Place: Bhubaneswar Jugal Kishore Mohapatra

Date: July 18, 2025 **CHAIRMAN** (DIN 03190289) The above text of advertisement has been issued on the authority and in the name of the Board of Directors of the Company and has been approved by

the Board of Directors at its meeting held on July 18, 2025 through video conferencing and a copy of same has been delivered to the Regional Office of the Department of Non-Banking Companies of the Reserve Bank of India, Chennai

THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED (A Government Company) Regd. Office: Kothagudem-507101, Telangana E-PROCUREMENT TENDER NOTICE Tenders have been published for the following Services/Material Procurement through e-procurement platform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or - https://scclmines.com

NIT/Enquiry No. - Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s) E042500111 - Procurement of various sizes of MS Ranges on Rate contract basis for two years period through again penenguiry - 30.07,2025-17:00 Hrs. NIT/Enquiry No. - Description / Subject / Estimated Contract Value - Last date and time.

BPA/CVL/N.1/EP-175(12)/2025-26/3033, Dt.11.07.2025 - Laying of CC road with M30 grade concrete and Hume pipe ulvert at Ullipitta Village under CSR budget in Bellampalli Area, Kumrambheem- Asilabad Dist., Telangana State - R 7,05,409/--04.08.2025-04:30 PM. SHP/CVL/ET-26/2275/25-26, Dt.09.07.2025 - Maintenance and Repair works to public buildings at Krishna colon Shupalpati Area for one year period - Rs. 30,09,036/-- 25.07.2025 - 04.00 PM. AGM (Civil) BHI R/2025/ADVT/MP/BPA/BHP/67 DIPR R.D. No.: 381-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2025-26, Date: 18-07-2025.

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release, directly or indirectly outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to it in the Letter of Offer (LOF) Dated June 02, 2025 filed with BSE.



### **BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED** CIN:L67120DL1992PLC049038

Our Company was incorporated as Bharat Bhushan Share& Stock Broker Limited on June 03,1992 under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana. The name of our Company was changed to Bharat Bhushan Share & Commodity Brokers Limited and fresh Certificate of Incorporation dated November 23, 2004 was issued. The name of our Company was further changed to Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited and fresh Certificate of Incorporation dated October 19, 2010 was issued. The Corporate Identification Number of our Company is L67120DL1992PLC049038. For more details, please refer to "General Information" on page 26. Registered Corporate Office: 503, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, Central Delhi, New Delhi, India-110001.

Contact person: Mr. Baldev Garg, Company Secretary and Compliance Officer | Telephone: 011 49800900 **Email Id:** corporate@bharatbhushan.com | website: www.bbinvestments.in PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. VIJAY BHUSHAN AND MS. NISHA AHUJA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED (Our Company or the Issuer) ONLY

ISSUE OF FULLY PAID UP 33.80.400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED ("BHARAT BHUSHAN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ RS. 10 EACH PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING 338.04 LAKHS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 1 EQUITY SHARESHELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF ISSUE" BEGINNING ON PAGE 165.

The Board of Director of Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Monday June 16, 2025 and closed on Monday July 07, 2025, and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlement was Tuesday July 01, 2025.

**BASIS OF ALLOTMENT** 

Out of the total 1674 applications for 1,52,97,887 Rights Equity shares, 502 Applications for 308,377 Rights Equity shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid applications received was 1172 Application for 1,49,83,855 Rights Equity Shares, which was 443.257% of the Issue size. The Basis of Allotment was finalized by the Company and approved by the Designated Stock Exchange (BSE) on July 15, 2025. All valid applications after rejection of bids on technical rejections have been considered for allotment.

The Rights Issue Committee of the company held a meeting on July 16, 2025, took note on the record of the basis of allotment and approved the allotment of 33,80,400. Right Equity shares to successful applicants.

1. The Breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Valid Applications Received	Number of Rights Equity Shares applied for	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)				
Eligible Equity Shareholders	1,131	14769422	2419193	903235	3322428				
Renouncees	41	214433	57972	0	57972				
Total	1,172	14983855	2477165	903235	3380400				
2. Information regarding total Applications received:									

Category	Applicatio	ns Received	Right Equity Shares Applied For			Right Equity Shares Allotted		
Calegory	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%
Eligible Equity Shareholders	1167	69.71%	14807708	148077080	96.80%	3322428	33224280	98.29%
Renouncees*	507	30.29%	490179	4901790	3.20%	57972	579720	1.71%
Total	1674	100.00%	15297887	152978870	100.00%	3380400	33804000	100.00%

\*includes those investors (identified on the basis of PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the RE as on the issue closing date and have applied in the Issue are considered as Renouncees. Intimation for Allotment/refund/rejection cases: the dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for

rejection, as applicable, to the investors has been completed on July 17, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Application were given on July 17, 2025. The listing approval has been received from BSE on July 16, 2025. The credit of Rights Equity Shares in the dematerialized form to the respective demat account of allottees has been completed by July 17, 2025 with CDSL & NSDL. The Rights Equity shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE with effect from July 22, 2025. The Rights Equity Shares will traded under the same ISIN as Equity Shares (i.e., INE900A01013- ISIN for Right Issue of Equity Shares).

The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees was completed on July 17, 2025. The Rights Equity Shares allotted to resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form and who have not provided details of their respective demat accounts, have been credited to the demat suspense account, in accordance with the terms of Letter of Offer. Such Eligible Equity Shareholders are required to send, among other details of their demat account to our company or the Registrar within six (6) months from allotment date, to get the Rights Equity Shares transferred in their the Demat Account. In case of non-receipt of demat account, our company shall conduct a sale of such Rights Equity shares lying in the demat suspense account on the floor of stock exchanges at the prevailing market price and remit the proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes and administrative and incidental charges) to the bank account mentioned by the resident eligible equity shareholder in their respective application forms and the form for which the application payment was made. For further details please refer to "Terms of Issue" on page number 165 of Letter of Offer. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY

IN DEMATERIALISED FORM.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE** 

It is to be distinctively understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to page no. 161 of the letter of offer for the context of Disclaimer clause of BSE Limited.

COMPANY	
TO WITH YOU ENDER THOSE THOSE THOSE THOSE	
BHARAT BHUSHAN FINANCE &	
COMMODITY BROKERS LIMITED	
Registered & Corporate Office: 503,	S
Rohit House, 3, Tolstoy Marg, Central	2
Delhi, New Delhi, India-110001.	J
Tel. No.: 011 49800900,	T
Fax No.: 011-49800933;	<u>"</u>

E-mail: corporate@bharatbhushan.com **Website:** www.bbinvestments.in

Contact Person: Mr. BaldevGarg CIN: L67120DL1992PLC049038

Date: 18 July, 2025

Place : New Delhi

**LEAD MANAGER** REGISTRAR TO THE ISSUE **C**ulankit

**ALANKIT ASSIGNMENTS LTD. SPA CAPITAL ADVISORS LIMITED SEBI Regn. No.:** INR000002532 **SEBI Rea. No.:** INM 000010825 Alankit Assignments Limited 205-208. 25, C – Block Community Centre, Anarkali Complex. Jhandewalan Extn. Janak Puri, New Delhi – 110 058. New Delhi- 110055 **Tel.:** 011 -42541 234, 011-42541966 **Tel.:** +91 11 4567 5500 **Fax:** +91 11 2355 2001 **E-mail:** rightissue@spacapital.com **Investor Grievance:** Investor Grievance e-mail id: bharatbhuhanrights@alankit.com grievances.mb@spagroupindia.com email: bharatbhushanrights@alankit.com Website: www.spacapital.com

Website: www.rights.alankit.com Contact Person: Ms. Ritika Manghnani Investors may Contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue or Post-Issue related matters. All Grievances relating to the ASBA process may be addressed to the registrar to the issue, with a

copy to the SCSB, giving full details. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE, THE RIGHTS **EQUITY SHARES. OR THE BUSNIESS PROSPECTS OF THE COMPANY.** 

Contact Person: Gurpreet Kaur

BHARAT BHUSHAN FINANCE AND COMMODITY BROKERS LIMITED Sd/-

Mr. Baldev Garg **Company Secretary & Compliance Officer** 

For and on behalf of

For and on behalf of M/s. Torextron Ventures Private Limited

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India INTIMATION OF FILING OF THE PRE-FILED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED JULY 17, 2025 ("PRE-FILED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS") OF ACEVECTOR LIMITED (THE "COMPANY") UNDER CHAPTER IIA OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED, ("SEBI ICDR REGULATIONS") WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"), BSE LIMITED AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (COLLECTIVELY, THE "STOCK EXCHANGES") IN RELATION TO THE PROPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF ITS EQUITY SHARES BEARING FACE VALUE OF ₹1 EACH (THE "EQUITY SHARES") ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES.

**PUBLIC ANNOUNCEMENT** 

**AV** ACEVECTOR

# **ACEVECTOR LIMITED**

Registered office: Mezzanine Floor, A-83, Okhla Industrial Area, Ph-II, New Delhi - 110020, India Corporate office: M3M Urbana Business Park, Tower A, 3rd Floor, Golf Course Road Extension, Section 67, Khandsa Road, Gurugram, Haryana - 122001, India Tel: +91 124 473 9850; Website: www.acevector.com; Contact person: Anil Kumar, Company Secretary and Compliance Officer;

This public announcement is being made pursuant to Regulation 59C(5) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public nat the Company has filed the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus with SEBI and the Stock Exchanges, under Chapte IIA of the SEBI ICDR Regulations in relation to the proposed initial public offering of its Equity Shares on the main board of the Stock Exchanges. The filing of the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus shall not necessarily mean that the Company will

E-mail: companysecretary@acevector.com; Corporate Identity Number: U72300DL2007PLC168097

undertake the initial public offering. This public announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares described in this public announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. No public offering of securities in the United States is contemplated

> For ACEVECTOR LIMITED On behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: July 18, 2025

**Anil Kumar Company Secretary and Compliance Officer** Adfactors

#### MARDIA SAMYOUNG CAPILLARY TUBES COMPANY LIMITED Corporate Identification Number: L74999MH1992PLC069104;

CORRIGENDUM TO THE POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT MADE TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Registered Office: J-55 MIDC Industrial Areatarapur, Boisar, Mumbai - 401506, Maharashtra, India: Corporate Office: 1304 Floor-13 Plot-453 LODHA Supremus, Senapati Bapat Marg Lower Parel, Delisle Road, Mumbai- 400013, Maharashtra, India;

Contact Number: 022-48261599; Email Address: mardiamail@hotmail.com; Website: www.mardiasamyoung.com;

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 18,09,967 OFFER SHARES REPRESENTING 26,00% OF THE VOTING CAPITAL OF MARDIA SAMYOUNG CAPILLARY TUBES COMPANY LIMITED, THE TARGET COMPANY, FROM ITS PUBLIC SHAREHOLDERS AT AN OFFER PRICE OF ₹5.00/-. PAYABLE IN CASH, BY M/S TOREXTRON VENTURES PRIVATE LIMITED (ACQUIRER), PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATIONS 3 (1), AND 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED,

This Corrigendum to the Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), on behalf of the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18(12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('Post-Offer Public This Corrigendum Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the: a) Public

Announcement dated Tuesday, December 17, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Monday, December 23, 2024 in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Tuesday, December 24, 2024, in Financial Express (English Daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition) ("Newspapers" 'Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Tuesday, December 31, 2024 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer with along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement (for holding Equity Shares in physical form), and Form SH-4 Securities Transfer Form dated Saturday, June 07, 2025 ("Letter of Offer"), (e) Recommendations of the Committee of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Monday, June 16, 2025 and published in the Newspapers on Tuesday, June 17, 2025 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company'), (f) Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement dated Tuesday, June 17, 2025, which was published in the Newspapers on Wednesday, June 18, 2025 ("Pre-Offer Public Announcement") (g) Post-Offer Public Announcement dated Thursday, July 17, 2025, which was published in the Newspapers on Friday, July 18, 2025 "Post-Offer Public Announcement") (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Committee of the Independent Directors, Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement of the Target Company, Post-Offer Public Announcement, and this Corrigendum to the Post-Offer Public Announcement are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer. The capitalized terms used but not defined in this this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to such

terms in the Offer Documents. This Corrigendum Post-Offer Public Announcement is intended to clarify and update certain disclosures provided in the

Post-Offer Public Announcement filed in accordance with the provisions as per SEBI (SAST) Regulations. The following revisions have been made in the Post-Offer Public Announcement:

7.	Details of the Acquisition										
56.	Particulars	Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this Offer)		Actuals (Pursuant to the tendering of Offer St some of the Public Shareholders under							
7.1	Offer Price	₹5.0	0/-	₹5.0	00/-						
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	18,09,	967	68	4						
7,3	Aggregate number of Equity Shares accepted	18,09,	967	68	34						
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹90,49,8	35.00/-	0.00/-							
7.5	Shareholding of the Acquirer befo	re the Share Purchase Ag	reement Public	Announcement							
8)	Number of Equity Shares	22404		AL .	Nil						
b)	% of Voting Share Capital	, m	NII		- Pull						
7.6	Sale Shares proposed to be acqui	red by way of Share Purc	hase Agreement	111	over the s						
a)	Number of Equity Shares	48,31	595	48,31,595							
b)	% of Voting Share Capital	69.4	1%	69.41%							
7,7	Equity Shares acquired by way of	Offer									
a)	Number of Equity Shares	18,09,	967	68	4						
b)	% of Voting Share Capital	26,00	1%	0.01%							
7.8	Equity Shares acquired after the D	etailed Public Statement	445	200							
a)	Number of Equity Shares acquired	Ni		N	1						
b)	Price of the Equity Shares acquired	Not App	icable	Not App	licable						
c)	% of Equity Shares acquired	Not App	icable	Not App	licable						
7.9	Post-Offer shareholding of the Acc	uirer		- 17.							
a)	Number of Equity Shares	66,41	562	48,32	,279						
b)	% of fully diluted Equity Share capital	95.4	1%	69.4	2%						
7.10	Pre-Offer and Post-Offer sharehold	ling of the Public Shareh	n the Acquirer)								
	Particulars	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer						
a)	Number of Equity Shares	21,29,815	3,19,848	21,29,815	21,29,131						
b)	% of Voting Share Capital	30.59%	4.59%	30,59%	30.58%						

obligations specified under SEBI (SAST) Regulations.

A copy of this Corrigendum to the Post-Offer Public Announcement will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

# **SWARAJ**

Place: Mumbai

Swaraj Shares and Securities Private Limited

Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621 Principal Place of Business: 402. Antariksh Thakoor House, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai - 400059.

Contact Person: Tanmoy Banerjee/ Pankita Patel

Contact Number: +91-22-69649999 Email Address: takeover@swarajshares.com

epaper.financialexpress.com

Investor grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com SEBI Registration Number: INM00012980 Validity: Permanent

Date: Friday, July 18, 2025 Mr. Keyur Kirtikumar Saxsena (Director)

# Regd. Off: SF No.34 and 35, Coimbatore, Pollachi Main Road, Mullipadi village,

Rs. 70,689.63 crores

Rs. 53.592.10 crores

(CIN:L31103TZ1990PLC002836)

Tamaraikulam Post, Kinathukkadavu Taluk, Coimbatore, Tamil Nadu, 642109 Website: www.magnacast.com | Email: info@magnacast.com NOTICE

**MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED** 

### **Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority**

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"), the equity shares of the company (in respect of which the final dividend declared during the financial year 2017-18 has remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years or more) are required to be transferred by the Company to the demat account of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority.

The Company vide its letter dated July 18, 2025, has sent communication to all the concerned shareholders at the latest available address, individually informing them of the impending transfer of share to the IEPF Authority under the said Rules for taking The company has also uploaded complete details of such shareholder(s) and shares due

for transfer to the IEPF Authority on its website www.magnacast.com. The shareholders

are requested to refer to weblink https://www.magnacast.com/investors/iepf/ to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority. The concerned shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand

automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in dematerialised form, shares to the extent liable to be transferred, shall stand debited from the shareholder's account In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders within three months from the date of this notice, for claim of the unpaid dividend from the financial year 2017-18 onwards, the Company shall in order to comply with the requirements of the Rules, transfer the shares for the IEPF

Authority by the due date as per the procedure set out in the Rules without any

further notice to the shareholders. Shareholders may also note that both the

unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority

including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules. For any queries on the above, the shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited), Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641 028. Tel No: 0422-2314792. e-mail: coimbatore@in.mpms.mufg.com.

> For Magna Electro Castings Limited N KRISHNASAMARAJ

Place: Coimbatore Date: 18.07.2025

**Managing Director** DIN: 00048547



### Balmer Lawrie & Co. Ltd. (A Government of India Enterprise)

Regd. Address.: 21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001 CIN: L15492WB1924GOI004835 Telephone No.: 033 22225313, Email: bhavsar.k@balmerlawrie.com

Website: www.balmerlawrie.com NOTICE FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES OF

EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY AND UPDATION OF PAN AND KYC This Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of

THE COMPANY TO DEMAT ACCOUNT OF THE INVESTOR

Corporate Affairs ('MCA') (as amended) ("the Rules"). The Act and the Rules, inter-alia, provide for transfer of all shares to the Demat Account of the IEPF Authority in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for

The final dividend for financial year 2017-18 with respect to the shares held by the shareholders (as referred above) shall be due for transfer to IEPF A/c on 19th October, 2025 upon completion of seven years. For all such cases where the final dividend from Financial Year 2017-18 to Financial Year 2023-24 would be found to remain unpaid/ unclaimed for seven consecutive years, the underlying shares shall also be transferred

by the Company to the Demat Account of IEPF as per Section 124 of the Act read with

the said Rules within 30 days of the due date.

Accordingly, individual communication has been sent to all the concerned shareholders. [whose dividend remained unclaimed/unpaid for 7(seven) consecutive years since FY 2017-18 and whose shares shall become due to be transferred to the Demat account of IEPF Authority (the fund)] at their latest address as available with Balmer Lawrie & Co. Ltd. (the Company). The Company has also uploaded on its website https://www.balmerlawrie.com/storage/dividend-documents/dividend 1752645562 Website%20upload xlsx names and other prescribed details of such

Further, please note that in terms of proviso to Section 124(6) of the Act read with Rule 7 of the IEPF Rules, once the shares are transferred to the IEPF Authority, the claimant may claim the said shares by making an online application in Web Form IEPF-5 as prescribed by the MCA, which is available on the website of the MCA at https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/home.html by following the procedure. inter alia, envisaged in the Act and the said Rules. Claimant are advised to approach the Company/RTA along with required documents for issue of entitlement letter before filing claim with IEPF Authority for which the process as stipulated under the Companies Act, 2013 and SEBI Regulations/circulars is to be followed. It may be noted that voting rights on the shares transferred to the Fund shall remain

frozen until the rightful owner claims the shares. To prevent your shares from being transferred to demat account of IEPF Authority, you

are requested to claim your unclaimed/unpaid dividend for the FY 2017-18 onwards on or before 19th October, 2025, by submission of requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s KFin Technologies Limited, at the address mentioned below. Please quote your Folio No./ DP ID/ Client ID in all your documents and also attach photocopy of your share certificate (both sides) for those holding shares in physical mode or send relevant client master list in case the holding is in Demat mode. Kindly note that the aforesaid procedure is only applicable for shareholders themselves claiming the shares and not the claims made by the legal heir and other claimants or cases of transmission etc. for which the procedure should be followed as per the Companies Act, 2013, read with the rules framed thereunder and SEBI (Listing. Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Further in terms of Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated June 23, 2025 the shareholders who are holding physical shares and have not yet updated their PAN and KYC details with the Company are requested to update the same by submission of duly filled requisite forms available on the website of the Company at https://www.balmerlawrie.com/static/investor\_relations or of RTA at https://investor.kfintech.com.

The demat shareholders will have to update their KYC details through their Depository

In case you need any other information /clarification, please contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz. KFin Technologies Limited at Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032, Tel: 1800 309 4001, Email: einward.ris@kfintech.com or 2/1, Russel Street, 4th Floor, Kankaria Centre, Kolkata-700071, Tel: 033 6628 5900.

For Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Company Secretary Date: 19th July, 2025 Place: Kolkata

New Delhi

& Compliance Officer and Nodal Officer under IEPF

Kavita Bhavsar

• पूर्ण विवरण वेबसाइट <u>http://www.ireps.gov.in</u> पर अपलोड कर दी गयी है। • सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किये जाने चाहियें। वरि. मण्डल सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर,

मजाधि/सिगनल-34 पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

#### डेवलपर्स लिमिटेड (CIN NO. L74993UP1990PLC015721) पंजी कार्यालयः 10.5 कि.मी. माइलस्टोन रामपुर—बरेली रोड़, रामपुर—244901 (उ. प्र.) ई—मेल आईडी: info@indiantoners.com, वेबसाइटः www.indiantoners.com फोन नं0: 0595-2356271

**सूचना** सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 व अनसार एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार 28 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली मे आयोजित की जाएँगी जिसमें अन्य विषयों के साथ—साथ 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथ अनुमोदन किए जाएंगे।

फैक्स नं0: 0595-2356273

\_ यह सूचना कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जहां कंपनी के इक्विटी शेय सूचीबद्ध हैं। क्रमश : <u>www.indiantoners.com</u>

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए हस्ता. /

### सार्वजनिक सुचना

नॉर्थ स्टार टावर्स प्राइवेट लिमिटेड. जिसका पंजीकत कार्यालय प्लॉट संख्या ७७, सेक्टर ४४, गुरुग्राम १२२००३ में है. ने ग्राम बढ़ा और नवादा फतेहपर, सेक्टर 90, गुरुग्राम में 6.4166 एकड़ क्षेत्र में टीओडी के तहत ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी स्थापित करने के लिए दिए गए लाइसेंस संख्या २६५/२०२३ दिनांक १९.१२.२०२३ के संबंध में मेसर्स एसएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डेवलपर परिवर्तन की अनुमति के लिए निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन हरियाणा को आवेदन किया है। और निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय ने हमें कॉलोनी के सभी मौजदा आवंटियों को डेवलपर के परिवर्तन के बारे में सूचित करने के लिए कहा है। यदि किसी आवंटी को देवलपर के प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति है, तो वह इस नोटिस के जारी होने के 30 दिनों के भीतर चरिष्ठ नगर योजनाकार हदा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर १४, गुरुग्राम के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि डेवलपर के प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है। डीटीसीपी द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन की एक प्रति, ज्ञापन संख्या २६८७८ दिनांक 16.7.2025. हमारी वेबसाइट www.ssgroup india.com पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। जारी तिथि: 19 जुलाई, 2025

एसडी/-नाम: बिजिमोल मणि पदनामः सीनियर बिजनेस मैनेजर नॉर्थ स्टार टावर्स प्राइवेट लिमिटेड

### इंडियन टोनर्स एंड

केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड APRI GLOBAL

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय: -502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्किल कार्यालय: - 9बी, द्वितीय तल, पुसा रोड, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों क प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं . रतदद्वारा कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा १३ की उप–धारा (४) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियं का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीसीएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का

7,	तितान पर्रता पर पाप हा विश्वा जा राव	VII 61		
5. ÷	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	गार्टर(रा) यम गाम	(अयल सन्पाता)	ाताब आर सारा	पम ।साम
	(ऋण खाता संख्या	<b>सम्पत्ति के सभी अश एवं खंड</b> ः संपत्ति संख्या 130/2,	08-05-2025	16-07-2025
	LNMEAZD000035538 (पुराना)	क्षेत्रफल परिमाप 43.47 वर्ग मीटर यानी 52 वर्ग गज,	₹.	
	80400005503110 (नया)	आयत संख्या 12, किला संख्या 27 / 2, तृतीय तल, छत	22,32,729 / -	
	दिल्ली शाखा)	सहित अंतिम मंजिल तक, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाह	इदरा पूर्वी दिल्ली -	-110051 में चंद
	मैसर्स संचित टाइल्स एंड सैनिटेशन	पार्क की आबादी में स्थित चौद्रदरी – पर्व अन्य प्लॉट प		

(इसके मालिक के माध्यम से) प्लॉट संख्या 133 ए, दक्षिणः अन्य की संपत्ति (कर्जदार) श्री धर्मेंद्र सिंह. थीमती सरिता ए सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : 105 वर्ग गज यानी (ऋण खाता संख्या) 08-05-2025

16-07-2025 LNMEKKD000080099 (पुराना) 87.80 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्र पर निर्मित फ्रीहोल्ड आवासीय 28,86,750 / -80400005866930 (नया) मकान, गाटा संख्या ८९, क्षेत्रफल परिमाप ०.००८७८ कड़कड़डूमा शाखा) हेक्टेयर, गाँव–हबीबपुर, परगना दादरी, तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306 में स्थित, चौहद्दी - पूर्व में रास्ता 8 फीट, पश्चिम में राजमल का प्लॉट श्री रोहित (कर्जदार) श्रीमती रविता आर उत्तर में: वीरेंद्र का प्लॉट, दक्षिण में: रविंदर का प्लॉट (सह-कर्जदार)

स्थान : दिल्ली / एनसीआर हस्ता. /- (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) तिथि : 19-07-2025

सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 2 SATYA Micro Housing

Finance Private Ltd कॉपोरेंट कार्यालयः 7वीं मंजिल, प्रियस हाइट्स, सेक्टर 125, नोएडा - 201303 पंजीकृत कार्यालयः 519, पंचम तल, डीएलएफ प्राइम टावर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020,

नोएडा शाखा कार्यालयः प्रथम तल, लॉजिक्स इन्फोटेक पार्क, डी-5, सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन के पास, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 **मथुरा शाखा कार्यालय**: दुकान संख्या 11ए, द्वितीय तल, मोती मंजिल, मथुरा, उत्तर प्रदेश-2281001 संपर्क व्यक्तिः अविनाश चंद्र (संग्रह- एवीपी)-9560789334, अमन पुनयानी (तकनीकी-फंक्शनल प्रमुख)-9992166688 नीलामी-सह-बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित प्रतिभृत परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, देय राशि की वसुली हेतु कर्जदार/रों से ''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वही है'' के आधार नीचे वर्णित अचल जो कि भौतिक कब्जे में है, की खरीद हेतु मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.	<b>कर्जदार( रों )</b> /	मॉग सूचना	अचल संपत्ति	आरक्षित	जमा धरोहर राशि 🛮
सं.	सह-कर्जदार( रों )/जमानती( यों )	तिथि तथा	का विवरण	मूल्य	(ज.ध.रा.) आरपी
	(लैन नं.∕शाखा)	राशि		(आरपी)	का 10%)
1.	लैनः HLNHFLMTJ0001262 शाखाः मथुरा 1. राज कुमारी 2. दयाचंद पताः कोसी खुर्द डाकघर के सामने मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश भारत 281005	17-07-2025 & ₹ 17,72,768/-	संपत्ति का समस्त भागः संपत्ति का पताः प्लॉट संख्या 43 का हिस्सा, श्री गणेश धाम कॉलोनी, तहसील एवं जिला मथुरा, एटीवी के पीछे, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281004		रु. 1,77,276/-
2.	लैनः1200162 शाखाः नोएडा 2 1. अंजू पताः 236, निजामपुर, बुलन्दशहर, सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश-203205 2. सूरज कुमार पताः अमीननबाद उर्फ न्याना, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203202	17-07-2025 & ₹ 3,52,851 /-	संपत्ति का समस्त भागः संपत्ति का पताः मकान संख्या 64, पल्ला, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207	6.98.850/-	रु. 69,885/-
_					

(1) निरीक्षण की तिथि एवं समयः 11-08-2025, 12:00 बजे अप. से 5:00 बजे अप. तक।

(2) निर्धारित निविदा प्रपत्रों में मुहरबंद बोली/प्रस्ताव, ईएमडी और केवाईसी सहित अंतिम तिथि 18-08-2025 को 5:00 बजे अप. तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर जमा करें। जो निविदाएँ नहीं भरी जाएँगी या जो अंतिम तिथि तक प्राप्त होंगी, उन्हें अमान्य माना जाएगा एवं तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3) संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खुलने की तिथि 20.08.2025 को उपरोक्त शाखा कार्यालय के पते पर 11:00 बजे पूर्वा. से 2:00 बजे अप तक है। निविदा प्राधिकत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएगी।

(4) एतद्वारा कर्जदार/रों तथा जमानती/यों को यह सचना दी जाती है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा बिक्री की शर्तें ला सकते हैं। . (5) जनसामान्य तथा विशेष रुप से कर्जदार(रों), ऋह-कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत ऊपर वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा सत्य माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएचएफपीएल) के प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को 30 दिन की बिक्री सूचना दी जाती है कि संपत्ति का बिक्री ''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यहीं है'' तथ ''जो कुछ भी है वही है'' के आधार पर सत्य माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को देय राशि की वसूली हेतु की जाएगी तथा बिक्री की तिथि से पूर्व राशि के भूगतान पर नीलामी रोक दी जाएगी।

(6) अचल संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी। हालाँकि, प्राधिकृत अधिकारी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है यदि आवश्यक समझा जाए तो। उल्लिखित संपत्ति आरक्षित मल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

(७) एसएमएचएफपीएल ऊपर उल्लिखित संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। संपत्ति की नीलामी ''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा "जो कछ भी है वही है'' के आधार पर की जाएगी। (8) डिमांड ड्राफ्ट केवल 'सत्य माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।

(९) नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्ते निर्धारित निविदा प्रपत्र में सम्मिलत हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी

निविदा की तिथि बढ़ाने या बोली की नियम और शर्तों को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। अधिक जानकारी एवं बोली की अन्य नियम और शर्तों के लिए कपया हमारी शाखा में जाएँ।

अधिक जानकारी हेतु कृपया प्राधिकृत अधिकारी से ऊपर उल्लिखित कार्यालय पते पर संपर्क करें। स्थानः नोएडा हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 19.07.2025 सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

#### VOITH

### वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 113/114-ए, सेक्टर-24, फरीदाबाद-121005, हरियाणा

सीआईएन: L74899HR1968PLC004895 फोन: +91 129 4292200; फैक्स: +91 129 2232072

ईमेलः voithfabrics.faridabad@voith.com, वेबसाइटः www.voithpaperfabricsindia.com

#### सार्वजनिक सुचना - 55वीं वार्षिक आम बैठक

एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को अपराह्न 3:30 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और इस संबंध में कॉपोर्रेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी। 55वीं एजीएम का आयोजन स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

वित्तीय वर्ष 2024/25 के लिए कंपनी की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां एजीएम की सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट www.voithpaperfabricsindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, वार्षिक रिपोर्ट 2024/25 के साथ एजीएम की सूचना बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी जहां कंपनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 55वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 55वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और वीसी/ओएवीएम सुविधा के दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भागीदारी या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को केवल अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट 2024/25 के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी प्रशासन/रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी के पास एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत हैं। इसके अलावा, जिन शेयरधारकों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें भी एक अलग सूचना भेजी जाएगी, जिसमें उन्हें उपरोक्त दस्तावेजों तक पहुँचने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले जिन सदस्यों ने अभी तक कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे जल्द से जल्द आरटीए/कंपनी के साथ पंजीकृत/अपडेट करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम ('इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट') के माध्यम से अपने बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने मैंडेट को अपडेट नहीं किया है, उन्हें इस संबंध में आवश्यक केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करके आरटीए के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश को पंजीकृत करना चाहिए, ताकि लाभांश प्राप्त हो सके - जो इस संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के

इसके अलावा, निवासी गैर-व्यक्तिगत सदस्य जैसे कि बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) और भारत में स्थापित अन्य घरेलू वित्तीय संस्थान और अनिवासी गैर-व्यक्तिगत सदस्य जैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, लाभांश के संबंध में टीडीएस की प्रयोज्यता और दर निर्धारित करने के लिए एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनएसडीएल के साथ पंजीकृत अपने संबंधित संरक्षकों के माध्यम से संबंधित फॉर्म, घोषणाएं और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका वैध ईमेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट और अन्य केवाईसी विवरण उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास हमेशा अपडेट रहें। केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 14 अगस्त, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, 55वीं वार्षिक आम बैठक में लेन-देन किए जाने वाले व्यावसायिक मदों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने का हकदार होगा।

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरकर्ता/-

सदस्यता संख्याः एफसीएस 4301

नई दिल्ली

**Home Loans** 

IndiaShelter

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः, प्लॉट नंबर 15 6वीं मंजिल,, सेक्टर 44 इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम,हरियाणा—122002 **शाखा कार्यालयः** कमल दुआ, ८४—आर, पहली मंजिल, लाल टंकी मार्केट के सामने, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा, पिन— 132103

	चल वस्तुओं की डिलीवरी लेने के लिए आवेदन		
ऋण संख्या	उधारकर्ताओं और सह—उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि	भौतिक कब्जे की तिथि
LA11CLLONS000005030613	श्रीमती सोनिया, श्री भूपिंदर	20.07.2023	21 अप्रैल 2025

**संपत्ति का पता**: संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, हस्तांतरण विलेख संख्या 1510 दिनांक 09/11/2027, खेवट संख्या 63 में शामिल, 120 वर्ग गज क क्षेत्रफल बरसात घरौंडा करनाल में स्थित

यह सार्वजनिक सूचना इस तथ्य के मद्देनजर जारी की जाती है कि उधारकर्ताओं को नोटिस भेजने के बावजूद, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेश लिमिटेड उपरोक्त उधारकर्ता(ओं) से उनके अंतिम पते पर संपर्क नहीं कर पाया है। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों व प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को उपरोक्त तिथि को मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ताओं द्वारा निर्धारित अविध के भीतर उक्त मांग नोटिस क पालन करने में विफल रहने पर, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त मांग नोटिस में विशेष रूप से वर्णित सुरक्षित परिसंपत्ति का भौतिक कब्ज ले लिया है। उक्त उधारकर्ताओं को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षित परिसंपत्ति में पड़े अपने निजी सामान को तुरंत हटा लें। ऐसा करने पर, प्राधिकृत अधिकारी के पास निजी घरेलू सामान आदि को हटाने और उसे उचित समझे जाने वाले तरीके से निपटाने के अलाव कोई विकल्प नहीं होगा। लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उधारकर्ताओं का होगा। ऐसी स्थिति में, भविष्य में इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांकः 19.07.2025 स्थानः करनाल (प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड किसी भी प्ररन के लिए कृपया श्री सुधीर तोमर से मोबाइल नंबर +91 98184 60101 पर संपर्क करें।

PICICI Home Finance कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधे

— कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई — 400059, भारत **शाखा कार्यालय**ः 302, 303, 304, तृतीय तल, एल्डिको कॉर्पोरेट चैंबर ।।।, टीसी 58V, विमृति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ— 226010

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें , अचल परिसंपत्तियों के विक्रय की सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (६) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम् 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी विक्रय सूचना।

तद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूत ऋणदाता के पा . इंधक / प्रभारित है. जिसका कब्जा **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है. को नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण अनुसार, "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओ)/सह-ऋणकर्ता ओं/गारंटरों/कानूनी वारिसों के नाम, ऋण खाता संख्या	प्रतिभूत परिसपत्ति(यो) के विवरण, ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि जमा	O-0	नीलामी की तिथि और समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफसी चरण
(क)	(ন্ত)	(স)	(ঘ)	(इ.)	(च)	(ম্ব)	(ज)	(झ)
1.	अफरोज एस खान	मकान नं. 1 जो खसरा सं. 42	₹.	₹.	जुलाई	अगस्त	अगस्त	साँकेतिक
	(उधारकर्ता)	तथा ४३ मिन. पर निर्मित,	26,38,105.	28,34,352 / -	29, 2025	05, 2025 को	04, 2025 को	कब्जा
	शमा शाहीन (सह–उधारकर्ता)	माधवपुर, वार्ड– कन्हैया,	00/-	₹.	को 11:00	02:00 अपराह	सायं 05.00	
	ऋण खाता संख्या LHLKS00001396705	माधवपुर, लखनऊ में स्थित है।	17 जून, 2025	2,83,435/-	पूर्वाह्न से 03:00 अपराह	से 03:00 अपराह	बजे से पहले	

ांधककर्ताओं / सूचनाकर्ताओं को 04 अगस्त 2025 को सायं 05:00 बजे तक अथवा इससे पहले भावी ब्याज सहित कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिर दिया जाता है, अन्यथा इन प्रतिमृत परिसंपत्तियों को उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेचा जाएगा। संमावित बोलीदाताओं को 04 अगरत 2025 को अप. 04:00 बजे अथवा इससे पहले विज्ञापन के शीर्ष पर उल्लिखित **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटे**:

शाखा कार्यालय के पते पर बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (स्तंभ ड. देखें) जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ओं) को ०४ अगस्त राजा जेनातच कर विचान सार्व जात (इंट्राज) आरोजारा) जिलाब हान लिखा (स्वान क्या हिमीस्ट्राज) कर करणा है। 2025 की सार्व 05:00 वर्ज या इससे पहले विचान के शीर्ष पर ठेल्लिखित सार्व**ीआईसीआईसीआई होम जड़िन कंपनी िजीस्ट्रेड** शाखा कार्यालय के पते पर पंजीकरण फॉर और बोली नियम और शर्तों के फॉर्म की इस्ताक्षरित प्रति भी अवस्य जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बँक से **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड - नीलामी"** के पक्ष में होना चाहिए, जो विज्ञापन के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय के नेरीक्षण, नीलामी की शर्तों और नियमों या निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइजेंस कंपज** 

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

विक्रय की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com/ पर जाएँ।

प्राधिकृत अधिकारी, "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड" दिनाँक : 19 जुलाई 2025

सीआईएन नंबर : U65922MH1999PLC120100

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release, directly or indirectly outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to it in the Letter of Offer (LOF) Dated June 02, 2025 filed with BSE

#### **BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED** CIN:L67120DL1992PLC049038

Our Company was incorporated as Bharat Bhushan Share& Stock Broker Limited on June 03,1992 under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana. The name of our Company was changed to Bharat Bhushan Share & Commodity Brokers Limited and fresh Certificate of Incorporation dated November 23, 2004 was issued. The name of our Company was further changed to Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited and fresh Certificate of Incorporation dated October 19, 2010 was issued. The Corporate Identification Number of our Company is L67120DL1992PLC049038. For more details, please refer to "General Information" on page 26.

Registered& Corporate Office: 503, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, Central Delhi, New Delhi, India-110001. Contact person: Mr. Baldev Garg, Company Secretary and Compliance Officer | Telephone: 011 49800900

Email Id: corporate@bharatbhushan.com | website: www.bbinyestments.in PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. VIJAY BHUSHAN AND MS. NISHA AHUJA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED (Our Company or the Issuer) ONLY

ISSUE OF FULLY PAID UP 33,80,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED ("BHARAT BHUSHAN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER" FOR CASH AT A PRICE OF ₹RS. 10 EACH PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING 338.04 LAKHS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 1 EQUITY SHARESHELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF ISSUE"BEGINNING ON PAGE 165.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Director of Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Monday June 16, 2025 and closed on Monday July 07, 2025, and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlement was Tuesday July 01, 2025.

Out of the total 1674 applications for 1,52,97,887 Rights Equity shares, 502 Applications for 308,377 Rights Equity shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid applications received was 1172 Application for 1,49,83,855 Rights Equity Shares, which was 443.257% of the Issue size. The Basis of Allotment was finalized by the Company and approved by the Designated Stock Exchange (BSE) on July 15, 2025. All valid applications after rejection of bids on technical rejections have been considered for allotment.

The Rights Issue Committee of the company held a meeting on July 16, 2025, took note on the record of the basis of allotment and approved the allotment of 33,80,400. Right Equity shares to successful applicants.

1. The Breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Valid Applications Received	Number of Rights Equity Shares applied for	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)			
Eligible Equity Shareholders	1,131	14769422	2419193	903235	3322428			
Renouncees	41	214433	57972	0	57972			
Total	1,172	14983855	2477165	903235	3380400			
O Information varieties to take Applications varieties								

Information regarding total Applications received

	Category	Applicatio	ns Received	Right Equity Shares Applied For			Right Equity Shares Allotted		
	oategory ,	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%
	Eligible Equity Shareholders	1167	69.71%	14807708	148077080	96.80%	3322428	33224280	98.29%
	Renouncees*	507	30.29%	490179	4901790	3.20%	57972	579720	1.71%
	Total	1674	100.00%	15297887	152978870	100.00%	3380400	33804000	100.00%

includes those investors (identified on the basis of PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the RE as on the issue closing date and have applied in the Issue are

Intimation for Allotment/refund/rejection cases: the dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on July 17, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Application were given on July 17, 2025. The listing approval has been received from BSE on July 16, 2025. The credit of Rights Equity Shares in the dematerialized form to the respective demat account of allottees has been completed by July 17, 2025 with CDSL & NSDL. The Rights Equity shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE with effect from July 22, 2025. The Rights Equity Shares will traded under the same ISIN as Equity Shares (i.e., INE900A01013-ISIN for Right Issue of Equity Shares).

The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees was completed on July 17, 2025. The Rights Equity Shares allotted to resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form and who have not provided details of their respective demat accounts, have been credited to the demat suspense account in accordance with the terms of Letter of Offer. Such Eligible Equity Shareholders are required to send, among other details of their demat account to our company or the Registrar within six (6) months from allotment date, to get the Rights Equity Shares transferred in their the Demat Account. In case of non-receipt of demat account, our company shall conduct a sale or such Rights Equity shares lying in the demat suspense account on the floor of stock exchanges at the prevailing market price and remit the proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes and administrative and incidental charges) to the bank account mentioned by the resident eligible equity shareholder in their respective application forms and the form for which the application payment was made. For further details please refer to "Terms of Issue" on page number 165 of Letter of Offer.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM

#### DISCLAIMER CLAUSE OF BSE

It is to be distinctively understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to page no. 161 of the letter of offer for the context of Disclaimer clause of BSE Limited. LEAD MANAGER



Registered & Corporate Office: 503 Rohit House, 3, Tolstoy Marg, Central Delhi, New Delhi, India-110001. Tel. No.: 011 49800900. Fax No.: 011-49800933:

E-mail: corporate@bharatbhushan.com

Website: www.bbinvestments.in Contact Person: Mr. BaldevGarg CIN: L67120DL1992PLC049038 Investors may Contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue or

SEBI Rea. No.: INM 000010825 25. C - Block Community Centre. Janak Puri. New Delhi - 110 058. Tel.: +91 11 4567 5500 E-mail: rightissue@spacapital.com

Investor Grievance e-mail id: Website: www.spacapital.com Contact Person: Gurpreet Kaur

# REGISTRAR TO THE ISSUE

**SPA CAPITAL ADVISORS LIMITED** New Delhi- 110055

grievances.mb@spagroupindia.com

ALANKIT ASSIGNMENTS LTD. **SEBI Regn. No.:** INR000002532 Alankit Assignments Limited 205-208.

Anarkali Complex, Jhandewalan Extn.,

Tel.: 011 -42541 234, 011-42541966 Fax: +91 11 2355 2001 Investor Grievance: bharatbhuhanrights@alankit.com

email: bharatbhushanrights@alankit.com Website: www.rights.alankit.com Contact Person: Ms. Ritika Manghnani

Post-Issue related matters. All Grievances relating to the ASBA process may be addressed to the registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE. THE RIGHTS

EQUITY SHARES, OR THE BUSNIESS PROSPECTS OF THE COMPANY. For and on behalf of

BHARAT BHUSHAN FINANCE AND COMMODITY BROKERS LIMITED Sd/-

Mr. Baldev Garg

Date: 18 July, 2025 Place: New Delhi

#### हण सं. LAHPU0622-00005089 **अचल संपत्ति का विवरण:**- प्लॉट संख्या 148, ग्राम दतावली गेसपुर, खसरा संख्या 34, गली संख्या 10, जय भीम नगर तहसील एवं जिला मेरठ, राज्यः उत्तर प्रदेश, पिन कोडः 250002, सीमा - पूर्व – प्लॉट संख्या 147 वली, पश्चिम – प्लॉ संख्या 149. अमीचंद, उत्तर - प्लॉट का शेष भाग 148. राजपाल, दक्षिण - रोड - 20 फीट चौडी 05.05.2025 योगेश कुमार शर्मा पुत्र अरविंद नाथ शर्मा 09.04.2025 तक ( कर्जदार) 14.07.2025 . माधवी माधवी 1. पाजपा नाजपा 2. सुनैना देवी (सह-कर्जदार) ऋण सं. LAGZB1222-00006480 30 फीट रोड. दक्षिण- प्लॉट संख्या- बी-56 सुनील कुमार पुत्र गुम दास (कर्जदार) 05.05.2025 09.04.2025 तक ऋण संख्या LAGZB0922-00005884

रु. 13,36,682/- (रुपये तेरह लाख छत्तीस हजार छह सौ **अचल संपत्ति का विवरण:**- प्लॉट संख्याः ए 85, भवन संख्याः भृतल पीछे बाईं ओर, भवन/गली का नामः ब्लॉक-ए ....-१, नाज्य, राज्यः उत्तर प्रदेश, पिन कोडः 201102, सीमा- पूर्व- फ्लैट संख्या- जीएफ-3, पश्चिम- प्लॉट संख्या- 86 उत्तर- अन्य संपत्ति, दक्षिण- फ्लैट नं. 1/1, सड़क 30 फीट चौड़ी।

अमित शर्मा पुत्र शेरीसंह शर्मा (कर्जदार) 1. अनुराधा शर्मा (सह-कर्जदार) 09.04.2025 तक 05.05.2025 14.07.2025 सत्तर मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण:- प्लॉट संख्याः खसरा संख्या 10, खेवट संख्या 1, संख्या 863-ए और प्लॉट संख्या 863, ग्राम उल्धनपुर में स्थित, काली माता मंदिर के पास, भूतल, बिना छत के अधिकार के, शहीद सुभाष गैस एजेंसी, विश्वास नगर, जिलाः पूर्वी दिल्ली, राज्यः दिल्ली, पिन कोडः 110032, सीमाएं- पूर्व- अन्य की संपत्ति, पश्चिम- गली फीट चौड़ी,

10.	कृष्णा देवी पुत्र बहु (कर्जदार)	05.05.2025	09.04.2025 तक रु. 6,78,858/
	1. रजनी (सह-कर्जदार) ऋण संख्या LAGZB0824-00011984	14.07.2025	(रुपये चार लाख अठहत्तर हजा आठ सौ अट्ठावन मात्र)

उत्तर- प्लॉट का भाग, दक्षिण- प्लॉट का भाग।

**अचल संपत्ति का विवरण:**- प्लॉट संख्याः संपत्ति संख्या ५/३८९ का हिस्सा, भवन संख्याः भतल का हिस्सा ( छत के अधिकार के बिना), भवन/गली का नामः मोहल्ला मंटोला, पहाड़ गंज, मंजिल संख्याः 0, फ्लैट/मकान संख्याः ), लैंडमार्कः होटल रोमा विला, शहरः पहाड़ गंज एस.ओ., जिलाः मध्य दिल्ली, राज्यः दिल्ली, पिन कोडः 110055, नीचे के अनुसार सीमा- पूर्व- अन्य संपत्ति संख्या- 390, पश्चिम- अन्य संपत्ति संख्या- 389/2, उत्तर- गली

तिथि : 18.07.202

और <u>www.bseindia.com</u>.

विशेष चतुर्वेदी स्थान : नई दिल्ली तिथि : 18.07.2025 कंपनी सचिव

फॉर्म नंबर यूआरसी-2 ाध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बा में समाचार पत्र में सूचना देने के लिये विज्ञापन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत)

नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार] एतद्दवारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनिय 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण मे कानपुर, उ.प्र. / सीआरसी मानेसर, हरियाणा में रजिस्ट्रा को एक आवेदन प्रस्तत किया गया है कि भारत शिकंज एलएलपी नामक एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों डा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए। कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

खाद्य उत्पादन वितरण और सेवा के साथ-साथ खानपान, आतिथ्य और संबंधित व्यावसायिक सहायत जैसी संभातित सहाराक गतितिभागों में संलास होता। रेस्तरां, कैफे, फास्ट फुड आउटलेट संचालित करना औ खानपान सेवाएं प्रदान करना। प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ

एसोसिएशन की एक प्रति फ्लैट नंबरः के-204, केडब्लू सृष्टि, राज नगर एक्सटें., गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017 स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जि आवेदन पर आपत्ति हो, वह इस सुचना के प्रकाशन क तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को (पते पर) लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसकी एक प्रति कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय भी भेजनी होगी।

देनांकः 02 जुलाई 2025 आवेदक का/के नाम:1. अनुभव जैन

Satin हारवाणा=122018 पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुन्दन भवन, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033 Finance Ltd. कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)] जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन

(अधिनियम, 2002 (2002 का 54)) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदारों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीत उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान की तारीख तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के आह्वान करते हुए संबंधित कर्जदारों को मांग नोटिस जारी उक्त कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का इस तिथि को सांकेतिक कब्ज विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जात है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ लेनदेन संबंधित तिथियों से पूर्ण भुगतान तक अतिरिक्त ब्याज, लागत और प्रभारों सहित इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए सैटिन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभत संपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में. कर्जदा का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदारों, सह-कर्जदारों और गारंटरों, प्रतिभतियों, बकाया देयताओं, धारा 13(2) के तहत भेजी गई मांग

सूचन	नूचना और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तारीख का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:						
क्र. सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं.	मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि	बकाया राशि रु. में				
1.	बुजबिहारी बधेल पुत्र जुगल किशोर (कर्जदार) 1. जुगल किशोर 2. सुनीता बधेल (सह-कर्जदार)	05.05.2025 14.07.2025	09.04.2025 तक रु. 1,63,925/- (रुपये एक लाख तिरसठ हजार नौ सौ पच्चीस मात्र)				

ऋण नं. LAMTR0720-00001789 **अचल संपत्ति का विवरण:**- खसरा संख्या-343 के 141.66 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला भुखंड, राजपुर बांगर तहसील व जेला मथुरा, उत्तर प्रदेश, पिन कोडः 281121, निम्नलिखित सीमाः पूर्व- 14 फीट चौड़ी सड़के, पश्चिम- प्रेम शंकर की भृमि,

2.	सुधा सुधा पत्नी सुधीर (कर्जदार)	05.05.2025	09.04.2025 तक	
	1. सुधीर पासवान (सह-कर्जदार) ऋण सं. LAGZB0820-00001907	14.07.2025	09.04.2025 तक रु. 17,88,146/- (रुपये सत्रह लाख अट्टासी हजार एक सौ छियालीस मात्र)	
प्रदेश,	। <b>१ संपत्ति का विवरणः</b> - भूखंड संख्याः ईडब्ल्यूएस, ३ , पिन कोडः 201001, सीमाः पूर्व- मकान संख्या- ७३। ५ -४ मीटर।			
प्रदेश,	, पिन कोडः 201001, सीमाः पूर्व- मकान संख्याँ- 73। 5 -4 मीटर। I			
प्रदेश,	, पिन कोड: 201001, सीमाँ: पूर्व- मकान संख्यों- 73 -4 मीटर।  भरत सिंह पुत्र प्रेम चीर (कर्जदार)  1. गीता देवी	), पश्चिम- मकान संख	व्या- 728, उत्तर- अन्य मकान, दक्षिण- 09.04.2025 तक रु. 5,38,191/- (रुपये पाँच लाख अड़तीस हजार	
प्रदेश, सड़क	, पिन कोड: 201001, सीमाँ: पूर्व- मकान संख्याँ- 73 5 -4 मीटर। भरत सिंह पुत्र प्रेम चीर (कर्जदार)	05.05.2025	झ्या- 728, उत्तर- अन्य मकान, दक्षिण- 09.04.2025 तक रु. 5,38,191/-	

, तहसील एवं जिला, आगरा, शहरः सियोला जाट बी.ओ., आगरा, उत्तर प्रदेश, पिन कोडः 282001, सीमा निम्नानुस पूर्व- कप्तान का खाली प्लॉट, पश्चिम- 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- शिशुपाल का मकान, दक्षिण- रामस्वरूप व गराम सिंह पुत्र सोहन लाल (कर्जदार) **रु.** 11,02,881/- ( रुपये ग्यारह 14.07.2025

लाख दो हजार आठ सौ इक्यासी मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण:- प्लॉट संख्याः भूमि संख्या 811, ग्राम मोहम्मद करीमपुर उर्फ दनकर, अलका ब्यूटी पार्लर, खुर्जा चौक एस.ओ., जिलाः बुलंदशहर, राज्यः उत्तर प्रदेश, पिन कोडः 203131, सीमाएं- पूर्व- सुरेश प्रधान का प्लॉट, पश्चिम- अन्य का प्लॉट, उत्तर- सड़क 20 फीट चौड़ी, दक्षिण- अन्य का प्लॉट। 05.05.2025 राजेंद्र पुत्र नरेश सिंह (कर्जदार) 1 . मुन्नी देवी (सह-कर्जदार) 09.04.2025 तक रु. 7,11,735 14.07.2025 ₹i. LAGZB0322-00004740 सात सौ पैतीस मात्र)

ऋण सं. LABLS1221-00004135

अचल संपत्ति का विवरण:- प्लॉट संख्याः प्लॉट संख्या 55/2, ब्लॉक-एच, खसरा संख्या-1831 अमित विहार, ग्राम बहेटा हाजीपुर लोनी, शहरः जीली बी.03, जिलाः गाजियाबाद, राज्यः उत्तर प्रदेश, पिन कोडः 201102, नीचे सीमा- पूर्व- प्लॉट संख्या-55/1, पश्चिम- प्लॉट संख्या-54, उत्तर- रास्ता 25 फीट चौड़ा, दक्षिण- प्लॉट संख्या 53/3 अजय कुमार पुत्र राजवीर सिंह (कर्जदार) 1. राज वीर सिंह 05.05.2025 14.07.2025 (रुपये नौ लाख तिरासी हजार 2. चांदनी (सह-कर्जदार आठ सौ चौवन मात्र)

**अचल संपत्ति का विवरण:**- प्लॉट संख्याः प्लॉट (ए) संख्या-बी 64-65 का भाग, खसरा संख्या 237, भवन संख्य विश्व तैस्या की विश्वतारा: "याद किया त्याद (४) तस्त्रीन्या क्षान्य का भाग, इतार तस्त्रा 257, पन्न तस्त्र वनगली का नाम: रेल विहार एक्सटेंगन, ग्राम साहुत्वावाद, मॉजल संख्या: 2, पलैट/मकान संख्या: रुपेटर संख्या एराएण: लैंडमार्क: पराना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201102, शहरः लोनी एस.ओ., जिलाः गाजियाबाद, राज्यः उत्त ादेश, पिन कोडः 201102, नीचे दी गई सीमा- पूर्व- प्लॉट संख्या- बी-66, पश्चिम- प्लॉट संख्या- 64 और 65, उत्तर

ь.				
Γ	10.	कृष्णा देवी पुत्र बट्ट (कर्जदार)	05.05.2025	09.04.2025 तक रु. 6,78,858/-
		1. रजनी (सह-कर्जदार) ऋण संख्या LAGZB0824-00011984	14.07.2025	(रुपये चार लाख अठहत्तर हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र)

दक्षिण- अन्य संपत्ति संख्या 387 अधिकृत प्राधिकारी, सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिनांकः 18 जुलाई, 2025,

स्थानः फरीदाबाद,

प्रचलित प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर लागू कर की कटौती के अधीन - सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी।

सी. एस. गुग्लियानी, कंपनी सचिव

Company Secretary & Compliance Officer

नवी दिल्ली, दि. १८ (वृत्तसंस्था) : भारतीय शेअर बाजारात, शुक्रवार, १८ जुलै गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला. आज बाजाराची सुरुवातच नकारात्मक झाली आणि दिवसभर घसरण सुरू राहिली. याचा परिणाम असा झाला की, बीएसई सेन्सेक्स ५०१. ५२ अंकांनी (०. ६१%) घसरून ८१, ७५७. ७३ वर बंद झाला. दुसरीकडे, निफ्टी १४३. ०५ अंकांनी (०. ५७ %) घसरून २४, ९६८. ४० वर स्थिरावला. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना सुमारे २. ५७ लाख कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. जागतिक बाजारपेठेतील कमकुवत संकेत आणि ॲक्सिस बँकेसह अनेक कंपन्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमकुवत निकालांमुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर नकारात्मक परिणाम झाला.

बीएसईवर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल ४५८.३० लाख कोटी रुपयांवर घसरले. काल, १७ जुलै रोजी हे बाजार भांडवल ४६०.८७ कोटी रुपये होते. याचा अर्थ असा की, फक्त एका दिवसात बीएसईवरील कंपन्यांचे मार्केट कॅप सुमारे २. ५७ लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत एवढ्या मोठ्या रकमेची घट झाली. सेन्सेक्समधील ३० पैकी केवळ ७ समभाग वाढीसह बंद झाले. यामध्ये बजाज फायनान्सच्या समभागांनी सर्वाधिक १.९४% वाढ आयसीआयसीआय बँक, एचसीएल टेक आणि इन्फोसिसचे शेअर्स ०.२४ टक्क्यांपासून ते १.६६ टक्क्यांपर्यंत वाढीसह बंद झाले.

सेन्सेक्समधील उर्वरित २३ शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. यामध्ये ॲक्सिस बॅंक सर्वाधिक ५. २४ टक्क्यांनी घसरली. तर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एअरटेल, HDFC बँक आणि कोटक महिंद्रा

#### जाहीर सूचना

सूचना याद्वारे आम जनतेस देण्यात येते की, आमचे अशील सुनिता देवी हे फ्लॅट क्र. ए-१, तळ मजला ए विं, इमारत शीतल प्लाझा को-ऑप. हा. से लि. म्हणून ज्ञात, शीतल नगर, मीरा रोड पूर्व जिल्हा ठाणे ४०१ १०७ (यापुढे सदर फ्लॅट म्हणून संदर्भित) संबंधात मालमत्तेचे मालक आहेत. सदर फ्लॅट श्री. लालजी शिवनाथ गुप्ता यांनी मे

के. डेव्हलोपर्स कडून विक्री करा दि.१६.०२.१९९३ अंतर्गत करार करून पुष्टी करार दि. २४.०३.२००९ अंतर्गत दस्तावेज ब्र टीएनएन-१०-१८५८-२००९ दि. २५.०३.२००९ अंतर्गत करार करून खरेदी केले होते.

ज्याअर्थी श्री. लालजी शिवनाथ गुप्ता यांचा मृत्यू दि. ०१.०९.२०२१ रोजी झाला त्यांच्या मागे सुनिता देवी (पत्नी) २. रोहित गुप्ता (मुलगा) ३ रूपेश गुप्ता (मुलगा) ४. निलम विद्यावाशिनी (मुलगी) ५. मनोजा आनंद गुप्ता (मुलगी) हे केवळ कायदेशीर वारस आहेत

ज्याअर्थी वारस १. रोहित गुप्ता २. रूपेश गुप्ता ३ निलम विद्यावाशिनी ४. मनोजा आनंद गुप्ता यांच्य नावे सदर फ्लॅटचे हक, अधिकार व हितसंबंध सुनिता देवी यांच्या नावे रिलीज करार दि १७.०५.२०२४ अंतर्गत धारक नोंदणीकरण क्र टीएनएन-१०-९१४३-२०२४ अंतर्गत त्यांचे हक अधिकार व हितसंबंध रिलीज्ड व रिलींक्वीश्ड केले होते. त्यामुळे सुनिता देवी हे सदर फ्लॅटचे परिपूर्ण

मालक आहेत. आमचे अशील, सदर प्रसिद्धी मार्फत याद्वारे आम जनतेस सुचित करत आहेत की, जर कोणाही व्यक्तीस सदर कार्यालय व/वा शेअर्स वा कोणत्याह भागाच्या संबंधात काही असल्यास दावे वा हक अधिकार, हितसंबंध असल्यास तसेच वारसा शेअर, विक्री, खारेदी, गहाण, भाडेकरार धारणाधिकार, परवाना, भेट, जप्ती वा अडथळे काही असल्यास वा अन्य काही असल्यास त्यांनी संबंधित दावे खालील निर्देशित आमच्या कार्यालय पत्त्यावर संबंधित दावे सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी तारखोपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत सुचित करावे अन्यथा दावे काही असल्यास सदर व्यक्तीचे दावे अधित्यागीत व/वा परित्यागीत मानले जातील व आमचे अशील याकरिता बंधनकारक नसतील

वकील उच्च न्यायालय मुंबई दुकान क्र. ९, अस्मीता ओरिएन्ट सीएचएस लि., अस्मीता क्लबजवळ, मीरा रोड (पू), ठाणे

बँक यांसारखे मोठे शेअर्स १.४४% ते २.३४% पर्यंत घसरले. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये घसरणीसह बंद झालेल्या शेअर्सची संख्या वाढलेल्या शेअर्सपेक्षा खूप जास्त होती. एकूण ४,२०८ शेअसीपैकी, केवळ १, ६६० शेअर्स वाढीसह बंद झाले, तर २,३९० शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली. १५८ शेअर्स कोणत्याही चढ-उतारांशिवाय स्थिर राहिले. व्यवहारात, १४३ शेअर्सने ५२ आठवड्यांचा नवा उच्चांक गाठला, तर ४५ शेअर्सने ५२ आठवड्यांचा नीचांक गाठला. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता सोमवार, २१ जुलै रोजी जाहीर होणाऱ्या काही मोठ्या कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर असेल.

#### पश्चिम रेल्वे

इलेक्ट्रिकल काम

वरिष्ठ डीईई/पी/बीसीटी, **निविदा क्रमांक:** ईएल-८१-९१८-डब्ल्युए-२५, दिनांक १५.०७.२०२५ मागवत आहे. काम आणि ठिकाण: मुंबई विभाग पनर्वायरनिंग द्वारे कार्यालये आणि सेवा डमारतीं मध्ये विद्युत वायरिंगची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हत कामाची अंदाजे किंमतः ४,०३,६८,४०४/-. ईएमडी: रु.३,५१,९००/-सादर करण्याची तारीख आणि वेठ १८.०८.२०२५ पर्यंत, दुपारी ३.०० वाजता उघडण्याची तारीख आणि वेळ: १८.०८.२०२५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता. अधिक माहितीसाठी कृपया आमच्या वेबसाइट www.ireps.gov.in

आम्हाला लाईक कराः 🚹 facebook.com/WesternRly

सूचना याद्वारे आम जनतेस देण्यात येते की, आमचे अशील अरिफ रमझान खोकर हे फ्लॅट क्र. ५०२ पाचवा मजला, बी विंग, बिल्डींग शिवम ॲन्ड लि. म्हणून ज्ञात, एव्हरशाईन एनक्लेव्ह, रसाझ थीएटरच्या मागे, मीरा रोड (पू), जिल्हा ठाणे ४०१ १०७ (यापढे सदर फ्लॅट म्हणन संदर्भित) संबंधात मालमत्तेचे ५०% शेअर धारके आहेत. सदर फ्लॅट संयुक्तरित्या १. श्री. रमझान हार्झ अब्दल खोतकर २. श्रीम. खेरून्नीसा आर. खोतक यांनी सी ग्रीन एव्हरशाईन बिल्डर्स प्रा. लि. कड्न नोंदणीकृत विक्री करार दि. ०४.०४.१९९८ अंतर्गत दस्तावेज क्र. सीएचएचए-१२८७-१९९८ दि. १५.०४.१९९८ अंतर्गत संयुक्तरित्या खरेदी

ज्याअर्थी श्री. रमझान हाझी अब्दूल खोकर यांच मृत्यू दि. २६.१२.२०११ रोजी झाला त्यांच्या मागे खेरून्नीसा आर. खोकर (पत्नी) २. अरिप रमझान खोकर (मुलगा) ३. झहिदा रमझान खोकन (मुलगी) ४. झहिरा रमझान खोकर (मुलगी) ५ साजीदा रमझान खोकर (मुलगी) ६. इरफान रमझान खोकर (मुलगा) ७. रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी (मुलगी) ८. शबनम (मुलगी) हे केवळ कायदेशीर वारस आहेत. ज्याअर्थी वारस १. खेरून्नीसा आर. खोकर २. झहिदा रमझा-खोकर ३. झहिरा रमझान खोकर, ४. साजीद रमझान खोकर ५. इरफान रमझान खोकर ६ रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी यांनी पी.ओ.ए धारक इरफान रमझान खोकर यांच्या मार्फत ७ शबनम यांना त्यांचे ५०% हक्क, अधिकार व हितसंबंध सदर दकानाच्या संबंधात अरिफ रमझा-खोकर यांच्या नावे रिलीज करार १६.०७.२०२५ नोंदणीकरण

दकानाचे ५०% मालक आहेत आमचे अशील, सदर प्रसिद्धी मार्फत याद्वारे आग जनतेस सुचित करत आहेत की, जर कोणार्ह व्यक्तीस सदर दकान व/वा शेअर्स वा कोणत्यार्ह भागाच्या संबंधात काही असल्यास दावे वा हक अधिकार, हितसंबंध असल्यास तसेच वारसा शेअर, विक्री, खारेदी, गहाण, भाडेकरार धारणाधिकार, परवाना, भेट, जप्ती वा अडथळे काही असल्यास वा अन्य काही असल्यास त्यांर्न संबंधित दावे खालील निर्देशित आमच्या कार्यालय ग्त्यावर संबंधित दावे सदर सूचनेच्या प्रसिर्द्ध तारखोपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत सुचित करावे अन्यथा दावे काही असल्यास सदर व्यक्तीचे दावे अधित्यागीत व/वा परित्यागीत मानले जातील व आमचे अशील याकरिता बंधनकारक नसतील.

टीएनएन-४-१५९१७-२०२५ अंतर्गत रिलीज्ड

केले होते. त्यामुळे अरिफ रमझान खोकर हे सदर

(राजेद्र सिंह राजपुरोहित) वकील उच्च न्यायालय, मुंबई दकान क्र. ९, अस्मीता ओरिएन्ट सीएचएस लि., अस्मीता क्लबजवळ, मीरा रोड (पू), ठाणे

: ४०१ १०७.

## सोन्याची झळाळी कमी होणार, चांदीची चमक मात्र वाढणार; १३ टक्क्यांच्या तेजीचा अंदाज

दिल्ली, दि. १८ (वृत्तसंस्था): येत्या काही महिन्यांत चांदीच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सिटीग्रुपच्या तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की चांदीच्या किमती १३ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. लेटन आणि इतर तज्ञांच्या अंदाजानुसार सोन्याच्या किमती २५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात, म्हणजेच सोन्याच्या किमती ३००-५०० डॉलर्सपर्यंत कमी होण्याची शक्या

वर्तवण्यात येत आहे. भौतिक पुरवठा कमी होत असल्यानं आणि गुंतवणुकीची मागणी वाढल्यानं येत्या काही महिन्यांत चांदीच्या किमती प्रति औंस ४० डॉलरच्या वर जाण्याची सिटीग्रुपच्या विश्लेषकांनी केलीये. सिटीग्रुपच्या विश्लेषकांनी चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ वर्तवली आहे, २०२५ मध्ये यात १३ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात

#### जाहीर सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की माझे क्लायंट/आम्ही मे. कायरुश इन्व्हेस्टमेंट्स, भागीदारी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत भागीदारी फर्म, ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय ४५०१, टॉवर २, अक्वा प्लॅनेट गोदरेज, केशवराव खाडे मार्ग, सात रास्ता, जेकब सर्कल, मुंबई- ४०००११ येथे आहे, त्यांच्या भागीदार श्रीमती शिल्पा भगत आणि श्री करण भगत यांच्यामार्फत, खाली लिहिलेल्या तक्त्यात विशेष वर्णन केलेल्य परिसराच्या मालकी हक्काची तपासणी करत आहोत

सर्व व्यक्ती ज्यांचा उक्त परिसराच्या संदर्भात विक्री, अदलाबदली, गहाण, भार, देणगी, न्यास, वारसा, भरणपोषण, कब्जा, भाडे, गहाण, संरक्षक हित किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे फ्लॅट आणि/किंवा शेअर्सवर कोणताही हक्क आहे, त्यांना सूचना देण्यात येते की त्यांनी सदर गोष्टीची लेखी माहिती खालील सही केलेल्या व्यक्तीस कार्यालयीन पत्ता प्रभारी श्री दिनेश जैन, कार्यालय क्र. ४१०, काकड मार्केट, ४था मजला, ३०६, कालबादेवी रोड, मुंबई - ४००००२ येथे या सूचनेच्या ०७ दिवसांत जबाबदार पावत्याविरुद्ध किंवा नोंदणीकृत ए/डी पोस्टाने पुराव्यासह द्यावी, असे न केल्यास अशा व्यक्तीचा/ व्यक्तींचा हक्क, जर असेल तर, सोडून दिला आणि/किंवा त्याग केला गेला समजला जाईल आणि या बाबतीत कोणत्याही पुढील संदर्भाशिवाय विक्री/हस्तांतरण पूर्ण केले जाईल

वरीलप्रमाणे उल्लेख केलेल्या अनुसूचीप्रमाणे परिसराचे वर्णन

फ्लॅट क्र. १२०२ सुमारे ११२२ चौ. फूट (समतुल्य १०४.२८ चौ. मी.) कार्पेट क्षेत्रफळ सह जोडलेले टेरेस १८८.५१ चौ. फूट १२व्या मजल्यावर, तसेच ०२ (दोन) कार पार्किंग जागा क्र. २५६ आणि ३०६ टॉवरच्या पोडियममध्ये, हा टॉवर अक्वा नावाने ओळखला जातो जो अक्वा को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. या संस्थेचा आहे ज्यांचा नोंदणी क्र. MUM/WE/HSG/(TC)/8948/2009-10 आहे, हा टॉवर क्र. २, सी.एस. क्र. १९६०, प्लॅनेट गोदरेज, केशव राव, खाडे मार्ग, भायखला (पश्चिम) मुंबई - ४०००११ येथे स्थित आहे, सादर जिमनीचा तुकडा आणि पार्सल सी.टी.एस क्र. १९६० भायखला विभाग मुंबई शहर नोंदणी जिल्हा आणि उपजिल्हा मुंबई महानगरपालिकेच्या 'इ' प्रभागात आहे, तसेच सदर संस्थेच्या रु. ५०/- प्रत्येकी दहा (१०) पूर्ण भरलेले शेअर्स वितरण क्र. २२१ ते २२० शेअर सर्टिफिकेट क्र. २२ दिनांक ३१-०७-२०१६ मध्ये समाविष्ट आहेत. मुंबई, दिनांक १९ जुलै, २०२५.

(महेंद सी. जैन) ॲडव्होकेट आणि सॉलिसिटर

တef | ईलेक्ट्रोनिका फायनान्स लिमिटेड

औदुंबर, १०१/१, एरंडवणे, डॉ. केतकर रोड, पुणे ४११ ००४, महाराष्ट्र, भारत

ज्याअर्थी **इलेक्ट्रॉनिका फायनान्स लिमिटेड, एक गैर–बँकिंग वित्तीय संस्था** यांचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट. २००२ (५४ ऑफ २००२) (यापढे सरफैसी ॲक्ट. २००२ म्हणून संदर्भित) च्या तरतुदीनुसार, ज्याचे **नोंदणीकृत कार्यालय औदुंबर**, प्लॉट क्रमांक १०१/१, डॉ. केतकर रोड, परांजपे बिल्डर ऑफिससमोर, एरंडवणे, पुणे-४११००४ (यापुढे ईएफएल म्हणून संदर्भित) येथे आहे आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियमाच्या नियम ३ सह वाचलेल्या कलम १३ (१२) अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, २००२ ने १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एक मागणी सूचना जारी केली आणि १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खालीलनावे - १. एक्सट्रजन इंजिनिअर वरिष्ठ क्र. २८६/१/१ गाळा क्र. १०२-१०३-१११, श्री भवन (उद्योग) भवन, डेमनी रोड, दादरा आणि नगर, हवेली, दादरा आणि नगर, हवोली-३९६ १९३. २. बिंदिया रॉय फ्लॅट क्र. ६०१, सहावा मजला, घर क्र. ३३४८, हनुमान मंदिरासमोर, सिल्वासा, सचिवालय रोड, दादरा आणि नगर, हवेली ३९६ १९३. **३. दीपक रॉय** फ्लॅट क्र. ६०१, सहावा मजला, घर क्र. ३३४८, हुनुमान मंदिरासमोर, सिल्वासा, सचिवालय रोड, दादरा आणि नगर, हवेली ३९६ १९३.

तुम्हाला कळविण्यात येते की, सदर सूचना १३-फेब्रुवारी-२०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला हा आदेश, सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ च्या अनुच्छेद १३ (२) अंतर्गत वरील निर्देशित पक्ष क्र. १ ते ३ संबंधात १८-०२-२०२५, २२-०२-२०२५ आणि ०७-०३-२०२५ रोजी वरील सर्व रक्कमेचे प्रदान करण्यास कसूर केली असल्याने रु. २०,००,९८०/-(रु. दोन लाख नउशे ऐंशी मात्र) द्वारे सदर नोटीस मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत व्याजासह कर्ज खाते/ संदर्भ : एपीपीएल०००५१६८ (लोन००००५००४३१०) अंतर्गत ६० दिवसांच्या आत त्यावरील व्याजासह प्रदान करावे.

कर्जदार/हमीदार रक्कम परत करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे, कर्जदाराला आणि सर्वसामान्य जनतेला सूचना देण्यात येत आहे की उप-कलम अंतर्गत त्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून खाली वर्णन केलेल्या मालमत्तेचा ताबा सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम २००२ च्या नियम ८ सहवाचन अनुच्छेद १३ च्या उप-अनुच्छेद ४ अंतर्गत प्राप्त अधिकारान्वये ताबा घेतला आहे.

विशेषतः कर्जदाराला आणि सर्वसाधारणपणे जनतेला याद्वारे इशारा देण्यात येतो की त्यांनी अनुसूची १ मध्ये नमूद केलेल्या मालमत्तेशी आणि अनुसूची १ मध्ये वर्णन केलेल्या मालमत्तेशी कोणत्याही व्यवहारात व्यवहार करू नये व रु. २०,००,९८०/- (रु. वीस लाख नउशे ऐंशी मात्र) व त्यावरील व्याज प्रभार यांच्यासह प्रदान करावे.

कर्जदाराचे लक्ष कायद्याच्या कलम १३ च्या उपकलम (८) च्या तरतुदींकडे आकर्षित केले आहे, उपलब्ध वेळेनुसार, सुरक्षित मालमत्तेची पूर्तता करण्यासाठी.

#### मालमत्तेचे वर्णन

औद्योगिक गाळा क्रमांक १०४ चा तो सर्व तुकडा आणि पार्सल, मोजमापित अंदाजे १८८२ चौ. फूट बिल्ट अप क्षेत्रफळ असलेल्या पहिल्या मजल्यावरील एन.ए. वर बांधलेल्या श्री भवन उद्योग भवन म्हणन ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर आणि स्थित आहे व केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर येथील दादरा गावात स्थित भू-मालमत्ता सर्वेक्षण क्रमांक- २८६/१/१, हवोली-३९६२३० (यापुढे प्रश्नातील मालमत्ता म्हणून संदर्भित)

उपरोक्त मालमत्तेची सीमा: - उत्तरेकडे : गाला क्रमांक १०५, दक्षिणेकडे गाला क्रमांक १०३ , पूर्वेकडे बायक्स इंडस्ट्रीजच्या कंपाउंड वॉलने, पश्चिमेकडे : गाला क्रमांक १२ए.

ठिकाण : दादरा दिनांक : १७/०७/२०२५

अधिकृत अधिकारी मेमर्स दलेक्टॉनिका फायनान्य लिमिटेड

#### जाहीर सूचना

जाहीर सूचना सूचना याद्वारे आम जनतेस देण्यात येते की. आमचे अशील १. अरिफ रमझान खोकर २. इरफान रमझान खोकर हे दुकान क्र. १, तळ मजला इमारत अस्मिता ओरिएन्ट को-ऑप. हा. सो. लि म्हणून ज्ञात, अस्मीता क्लबसमोर, मीरा रोड पूर्व जिल्हा ठाणे ४०१ १०७ (यापुढे सदर दुकान म्हणून संदर्भित) संबंधात मालमत्तेचे ५०% शेअर मालव

सदर दकान १. हाजी रमझान खोकर २. खैरून्नीस एच. आर. खोकर यांनी मे. अस्मिता बिल्डर्सकडन विक्री करार दि.१४.०८.२००३ अंतर्गत करार करून पुष्टी करार दि. २६.०८.२००३ अंतर्गत दस्तावेज क्र. टीएनएन-७-४६७०-२००३ अंतर्गत करार करून खरेदी केले होते.

ज्याअर्थी हाजी रमझान खोकर यांचा मृत्यू दि २६.१२.२०११ रोजी झाला त्यांच्या मागे १ खेरून्नीसा एच. आर. खोकर (पत्नी) २. अरिफ रमझान खोकर (मुलगा) ३. झहिदा रमझान खोकर (मुलगी) ४. झहिरा रमझान खोकर (मुलगी) ५ साजीदा रमझान खोकर (मुलगी) ६. इरफान रमझान खोकर (मुलगा) ७. रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी (मुलगी) ८. शबनम (मुलगी) हे केवळ कायदेशीर वारस आहेत. ज्याअर्थी वारस १. खेरून्नीसा एच. आर. खोकर २

झहिदा रमझान खोकर ३. झहिरा रमझान खोकर ४. साजीदा रमझान खोकर ५. रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी यांनी पी.ओ.ए. धारक इरफान रमझान खोकर यांच्या मार्फत ६. शबनम यांना त्यांचे सदर दुकान १. अरिफ रमझान खोकर यांच्या नावे ५०% रिलीज करार दि. १६.०७.२०२५ अंतर्गत धारक नोंदणीकरण टीएनएन-४-१५९१५-२०२५ अंतर्गत त्यांचे हक, अधिकार व हितसंबंध रिलीज्ड व रिलींक्वीश्ड केले होते. त्यामुळे १. अरिफ रमझान खोकर २. इरफान रमझान खोकर हे सदर दुकानाचे ५०% मालक

आमचे अशील, सदर प्रसिद्धी मार्फत याद्वारे आम जनतेस सूचित करत आहेत की, जर कोणाही व्यक्तीस सदर कार्यालय व/वा शेअर्स वा कोणत्याही भागाच्या संबंधात काही असल्यास दावे वा हक्क, अधिकार, हितसंबंध असल्यास तसेच वारसा, शेअर, विक्री, खारेदी, गहाण, भाडेकरार, धारणाधिकार, परवाना, भेट, जप्ती वा अडथळे काही असल्यास वा अन्य काही असल्यास त्यांनी संबंधित दावे खालील निर्देशित आमच्या कार्यालय पत्त्यावर संबंधित दावे सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी तारखेपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत स्चित करावे अन्यथा दावे काही असल्यास सदर व्यक्तीचे दावे अधित्यागीत व/वा परित्यागीत मानले जातील व आमचे अशील याकरिता बंधनकारक नसतील.

(राजेद्र सिंह राजपुरोहित) वकील उच्च न्यायालय मुंबई दुकान क्र. ९, अस्मीता ओरिएन्ट सीएचएस लि., अस्मीता क्लबजवळ, मीरा रोड (पू), ठाणे सचना याद्वारे आम जनतेस देण्यात येते की. आमचे अशील अरिफ रमझान खोकर हे कार्यालय क. ३. पहिला मजला. बिल्डींग अस्मीत ओरिएन्ट को-ऑप, हा, सो, लि, म्हणन जात अस्मीता क्लबसमोर, मीरा रोड पूर्व, जिल्हा ठाणे ४०१ १०७ (यापुढे सदर कार्यालय म्हणून संदर्भित) संबंधात मालमनेचे मालक आहेत सदर कार्यालय श्री. हाजी रमझान खोकर

यांच्याद्वारे मे. अस्मिता बिल्डर्स यांच्याकडन

विक्री करार दि. २६.०७.२००६ अंतर्गत करार करून पुष्टी करार दि. २७.०६.२००७ अंतर्गत दस्तावेज क्र. टीएनएन-१०-५९०५-२००७ दि. २९.०६.२००७ अंतर्गत करार केले होते. ज्याअर्थी श्री. हाजी रमझान खोकर यांचा मृत्यू दि. २६.१२.२०११ रोजी झाला त्यांच्या मागे १ खेरून्नीसा रमझान खोकर (पत्नी) २. अरिफ रमझान खोकर (मुलगा) ३. झहिदा रमझान खोकर (मुलगी) ४. झहिरा रमझान खोकर (मुलगी) ५. साजीदा रमझान खोकर (मुलगी) ६ इरफान रमझान खोकर (मुलगा) ७. रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी (मुलगी) ८. शबनम (मुलगी) हे केवळ कायदेशीर वारस आहेत. ज्याअर्थी वारस १. खेरून्नीसा रमझान खोकर २ अरिफ रमझान खोकर ३. झहिदा रमझान खोकर ४. झहिरा रमझान खोकर, ५. साजीदा रमझान खोकर ६. रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी यांनी पी.ओ.ए. धारक इरफान रमझान खोकर यांच्या मार्फत ७. शबनम यांना त्यांचे सदर कार्यालय इरफान रमझान खोकर यांच्या नावे रिलीज करा दि. १६.०७.२०२५ अंतर्गत धारक नोंदणीकरण क्र. टीएनएन-४-१५९१८-२०२५ अंतर्गत त्यांचे हक्क. अधिकार व हितसंबंध रिलीज्ड केले होते

त्यामळे इरफान रमझान खोकर हे सदर कार्यालयाचे परिपूर्ण मालक बनले. आमचे अशील, सदर प्रसिद्धी मार्फत यादारे आम जनतेस सचित करत आहेत की. जर कोणाही व्यक्तीस सदर दकान व/वा शेअर्स वा कोणत्याही भागाच्या संबंधात काही असल्यास दावे वा हक अधिकार, हितसंबंध असल्यास तसेच वारसा शेअर, विक्री, खारेदी, गहाण, भाडेकरार, धारणाधिकार, परवाना, भेट, जप्ती वा अडथळे काही असल्यास वा अन्य काही असल्यास त्यांनी संबंधित दावे खालील निर्देशित आमच्या कार्यालय पत्त्यावर संबंधित दावे सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी तारखेपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत सूचित करावे अन्यथा दावे काही असल्यास सदर व्यक्तीचे दावे अधित्यागीत व/वा परित्यागीत मानले जातील व आमचे अशील याकरिता बंधनकारक नसतील

(राजेद्र सिंह राजपुरोहित वकील उच्च न्यायालय, मुंबई दुकान क्र. ९, अस्मीता ओरिएन्ट सीएचएस लि., अस्मीता क्लबजवळ, मीरा रोड (पू), ठाणे : ४०१ १०७.

जाहीर सूचना सचना याद्वारे आम जनतेस देण्यात येते की. आमचे अशील अरिफ रमझान खोकर हे कार्यालय क्र. ०४. पहिला मजला, इमारत अस्मित ओरिएन्ट को-ऑप. हा. सो. लि. म्हणून ज्ञात, अस्मीता क्लबसमोर, मीरा रोड पर्व, जिल्हा ठाणे ४०१ १०७ (यापुढे सदर कार्यालय म्हणून

सदर कार्यालय श्री. रमझान हाजी अब्दुल खोकर यांनी श्री. मुहम्मद हनिफ सैयद यांच्याकडून विक्री करार दि. ०८.०८.२००६ अंतर्गत करार करून पुष्टी करार दि. ११.०८.२००६ अंतर्गत दस्तावेज क्र. टीएनएन-१०-०६४१३-२००६ अंतर्गत करार करून खरेदी केले होते.

संदर्भित) संबंधात पालपनेचे पालक आहेत

ज्याअर्थी श्री. रमझान हाजी अब्दूल खोकर यांचा मृत्यू दि. २६.१२.२०११ रोजी झाला त्यांच्या मागे १. खेरून्नीसा रमझान खोकर (पत्नी) २ अरिफ रमझान खोकर (मुलगा) ३. झहिदा रमझान खोकर (मुलगी) ४. झहिरा रमझान खोकर (मुलगी) ५. साजीदा रमझान खोकर (मुलगी) ६. इरफान रमझान खोकर (मुलगा) ७. रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी (मुलगी) ८. शबनम (मलगी) हे केवळ कायदेशीर वारस आहेत. ज्याअर्थी वारस १. खेरून्नीसा रमझान खोकर २

झहिदा रमझान खोकर ३. झहिरा रमझान खोकर, ४. साजीदा रमझान खोकर ५. इरफान रमझान खोकर, ६. रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी यांनी पी.ओ.ए. धारक इरफान रमझान खोकर यांच्या मार्फत ७. शबनम यांना त्यांचे सदर कार्यालय अरिफ रमझान खोकर यांच्या नावे रिलीज करार दि. १६.०७.२०२५ अंतर्गत धारक नोंदणीकरण क्र. टीएनएन-४-१५९१६-२०२५ अंतर्गत त्यांचे हक, अधिकार व हितसंबंध रिलीज्ड व रिलींक्वीश्ड केले होते. त्यामळे अरिफ रमझान खोकर हे सदर कार्यालयाचे परिपूर्ण मालक आहेत आमचे अशील, सदर प्रसिद्धी मार्फत यादारे आम जनतेस सचित करत आहेत की. जर कोणाही व्यक्तीस सदर कार्यालय व/वा शेअर्स व कोणत्याही भागाच्या संबंधात काही असल्यास दावे वा हक्क, अधिकार, हितसंबंध असल्यास तसेच वारसा, शेअर, विक्री, खरेदी, गहाण, भाडेकरार, धारणाधिकार, परवाना, भेट, जप्ती वा अडथळे काही असल्यास वा अन्य काही असल्यास त्यांनी संबंधित दावे खालील निर्देशित आमच्या कार्यालय पत्त्यावर संबंधित दावे सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी तारखोपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत सूचित करावे अन्यथा दावे काही असल्यास सदर व्यक्तीचे दावे अधित्यागीत व/वा

परित्यागीत मानले जातील व आमचे अशील

याकरिता बंधनकारक नसतील

(राजेट्र सिंह राजपुरोहित वकील उच्च न्यायालय मुंबई दुकान क्र. ९, अस्मीता ओरिएन्ट सीएचएस लि., अस्मीता क्लबजवळ, मीरा रोड (पू), ठाणे

### जाहीर सूचना

सूचना याद्वारे आम जनतेस देण्यात येते की, आमचे अशील १. अरिफ रमझान खोकर २. इरफान रमझान खोकर हे दुकान क्र. २, तळ मजला, बिल्डींग अस्मिता ओरिएन्ट को-ऑप. हा. सो लि. म्हणून ज्ञात, अस्मीता क्लबसमोर, मीरा रोड पूर्व, जिल्हा ठाणे ४०१ १०७ (यापुढे सदर दुकान म्हणून संदर्भित) संबंधात मालमत्तेचे ५०% शेअर धारक आहेत.

सदर दुकान १. खैरून्नीसा एच. आर. खोकर २ हाजी रमझान खोकर यांनी मे. अस्मीत बिल्डर्सकडून विक्री करार दि. १४.०८.२००३ अंतर्गत करार करून पुष्टी करार दि. २६.०८.२००३ अंतर्गत दस्तावेज क्र. टीएनएन-७-४६७१-२००३ अंतर्गत करार केले होते

ज्याअर्थी हाजी रमझान खोकर यांचा मृत्यू दि. २६.१२.२०११ रोजी झाला त्यांच्या मार्गे १ खेरून्नीसा रमझान खोकर (पत्नी) २. अरिफ रमझान खोकर (मुलगा) ३. झहिदा रमझान खोकर (मुलगी) ४. झिहरा रमझान खोकर (मुलगी) ५ साजीदा रमझान खोकर (मुलगी) ६. इरफान रमझान खोकर (मुलगा) ७. रूबीना मोहम्मद अरशद सोलंकी (मुलगी) ८. शबनम (मुलगी) हे केवळ कायदेशीर वारस आहेत.

ज्याअर्थी वारस १. खेरून्नीसा एच. आर. खोकर २. झहिदा रमझान खोकर ३. झहिरा रमझान खोकर, ४. साजीदा रमझान खोकर ५. रूबीन मोहम्मद अरशद सोलंकी यांनी पी.ओ.ए. धारक इरफान रमझान खोकर यांच्या मार्फत ६. शबनम यांना त्यांचे सदर कार्यालय १. अरिफ रमझान खोकर २. इरफान रमझान खोकर यांच्या नावे रिलीज करार दि. १६.०७.२०२५ अंतर्गत धारक नोंदणीकरण क्र. टीएनएन-४-१५९१४-२०२५ अंतर्गत त्यांचे ५०% हक, अधिकार व हितसंबंध रिलीज्ड व रिलींक्वीश्ड केले होते. त्यामुळे १. अरिफ रमझान खोकर २. इरफान रमझान खोकर हे सदर दकानाचे ५०% मालक आहेत. आमचे अशील, सदर प्रसिद्धी मार्फत याद्वारे आम

जनतेस सुचित करत आहेत की, जर कोणाई व्यक्तीस सदर दुकान व/वा शेअर्स वा कोणत्यार्ह भागाच्या संबंधात काही असल्यास दावे वा हक्क. अधिकार, हितसंबंध असल्यास तसेच वारसा शेअर, विक्री, खरेदी, गहाण, भाडेकरार, धारणाधिकार, परवाना, भेट, जप्ती वा अडथळे काही असल्यास वा अन्य काही असल्यास त्यांनी संबंधित दावे खालील निर्देशित आमच्या कार्यालय पत्त्यावर संबंधित दावे सदर सुचनेच्या प्रसिद्धी तारखोपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत सचित करावे अन्यथा दावे काही असल्यास सदर व्यक्तीचे दावे अधित्यागीत व/वा परित्यागीत मानले जातील व आमचे अशील याकरिता बंधनकारक नसतील.

(राजेद्र सिंह राजपुरोहित) वकील उच्च न्यायालय मुंबई दकान क्र. ९. अस्मीता ओरिएन्ट सीएचएस लि., अस्मीता क्लबजवळ, मीरा रोड (पू), ठाणे

: ४०१ १०७.

आणि गुंतवणूक मागणीत वाढ यामुळे हा अंदाज व्यक्त केलाय. जागतिक चांदी बाजारात, ज्याचं मूल्य ३० अब्ज डॉलर्स आहे आणि सलग पाचव्या वर्षी परवठ्यापेक्षा मागणी असण्याची अपेक्षा आहे. मागणी १. ०५ अब्ज औंसच्या पुरवठ्याच्या

आलाय. चांदीच्या पुरवठ्यात घट

तुलनेत १. २० अब्ज औंस होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.

सिटीच्या अंदाजानुसार, चांदीच्या किमती अल्पावधीत ५ टक्क्यांनी वाढून ४० डॉलर्स होतील आणि पुढील ६-१२ महिन्यांत १३ टक्क्यांनी वाढून ४३ डॉलर्सपर्यंत जातील असा अंदाज सिटीनं व्यक्त केलाय. सोने आणि चांदीचं गुणोत्तर पाहिलं तर चांदीच्या किमतीत वाढ दर्शवत जानेवारीमध्ये सोन्या-चांदीचं गुणोत्तर १०० च्या आसपास होतं, ते आता ८५ पर्यंत घसरलंय. दीर्घकालीन सरासरी सोने-चांदी गुणोत्तर ७० आहे. यावरुन चांदीच्या दरात अजूनही तेजी येण्याची शक्यता असल्याचं दिसून येतंय.



#### **TENDER NOTICE**

Ref: EE/400KV/RS/O&M/DN/KLW/TECH/25-26/T-10/520

Dt. 18.07.2025

MSETCL invites online bids (SRM-Tender) from registered contractors agencies on Mahatransco E-Tendering website http://srmetender.mahatransco.in for following works.

Sr. No.	RFx No.	Description of Work	Due date & Time (Hrs.) for submission & Opening of Tender
1	7000036858	SRM E-Tender (2nd Call) for supply of various clamps and connectors required for maintenance work at 400 KV RS Kalwa and 220kV RS Kalwa under 400 KV RS (O&M) Division, Kalwa.	Download and submission of tender Documents Date: Dt. 19.07.2025 11:00 Hrs. to Dt. 29.07.2025 up to 10:00 Hrs.  Techno-commercial Opening:- Dt. 29.07.2025 at 11:00 Hrs. (Onwards if possible)  Price Bid Opening:- Dt. 29.07.2025 at 12:00 Hrs. (Onwards if possible)
		Tender Fee	Rs. 500 + GST 5%
		Estimated Cost	Rs. 16.79.236/-

Contact Person: Executive Engineer / Dy. Executive Engineer (O) & Mob No. 9769213914/7977325020.

1. Relevant portions of the Tender which the tenderers have to fill online would be available on aforesaid website.

2. Tender documents can be downloaded by online from aforesaid website.

3. Eligible contractor agencies should submit their bid well in advance instead of waiting till last date. MSETCL will not be responsible for non-submission of Bid due to any website related problems.

> **EXECUTIVE ENGINEER** 400KV R S O&M DN KALWA

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release, directly or indirectly, outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to it in the Letter of Offer (LOF) Dated June 02, 2025 filed with BSE.



#### **BHARAT BHUSHAN FINANCE &** COMMODITY BROKERS LIMITED

CIN:L67120DL1992PLC049038

Our Company was incorporated as Bharat Bhushan Share& Stock Broker Limited on June 03,1992 under the Companies Act, 1956withthe Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana. The name of our Company was changed to Bharat Bhushan Share & Commodity Brokers Limited and fresh Certificate of Incorporation dated November 23, 2004 was issued. The name of our Company was further changed to Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited and fresh Certificate of Incorporation dated October 19, 2010 was issued. The Corporate Identification Number of our Company is L67120DL1992PLC049038. For more details, please refer to "General Information" on page 26. Registered& Corporate Office: 503, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, Central Delhi, New Delhi, India-110001.

Contact person: Mr. Baldev Garg, Company Secretary and Compliance Officer | Telephone: 011 49800900

Email Id: corporate@bharatbhushan.com | website: www.bbinvestments.in

PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. VIJAY BHUSHAN AND MS. NISHA AHUJA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED (Our Company or the Issuer) ONLY

ISSUE OF FULLY PAID UP 33,80,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED ("BHARAT BHUSHAN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ RS. 10 EACH PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING 338.04 LAKHS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 1 EQUITY SHARESHELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF ISSUE" BEGINNING ON PAGE 165.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Director of Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Monday June 16, 2025 and closed on Monday July 07, 2025, and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlement was Tuesday July 01, 2025

rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid applications received was 1172 Application for 1,49,83,855 Rights Equity Shares, which was 443.257% of the Issue size. The Basis of Allotment was finalized by the Company and approved by the Designated Stock Exchange (BSE) on July 15, 2025. All valid applications after rejection of bids on technical rejections have been considered for allotment.

Out of the total 1674 applications for 1.52.97.887 Rights Equity shares, 502 Applications for 308.377 Rights Equity shares were

The Rights Issue Committee of the company held a meeting on July 16, 2025, took note on the record of the basis of allotment and approved the allotment of 33,80,400. Right Equity shares to successful applicants.

1. The Breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Valid Applications Received	Number of Rights Equity Shares applied for	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)		
Eligible Equity Shareholders	1,131	14769422	2419193	903235	3322428		
Renouncees	41	214433	57972	0	57972		
Total	1,172	14983855	2477165	903235	3380400		
2 Information regarding total Applications received:							

Information regarding total Applications received

Category	Applications Received		Right Equity Shares Applied For			Right Equity Shares Allotted		
Galegory	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%
Eligible Equity Shareholders	1167	69.71%	14807708	148077080	96.80%	3322428	33224280	98.29%
Renouncees*	507	30.29%	490179	4901790	3.20%	57972	579720	1.71%
Total	1674	100.00%	15297887	152978870	100.00%	3380400	33804000	100.00%

\*includes those investors (identified on the basis of PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the RE as on the issue closing date and have applied in the Issue are considered as Renouncees.

Intimation for Allotment/refund/rejection cases: the dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on July 17, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Application were given on July 17, 2025. The listing approval has been received from BSE on July 16, 2025. The credit of Rights Equity Shares in the dematerialized form to the respective demat account of allottees has been completed by July 17, 2025 with CDSL & NSDL. The Rights Equity shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE with effect from July 22, 2025. The Rights Equity Shares will traded under the same ISIN as Equity Shares (i.e., INE900A01013- ISIN for Right Issue of Equity Shares).

The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees was completed on July 17, 2025. The Rights Equity Shares allotted to resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form and who have not provided details of their respective demat accounts, have been credited to the demat suspense account, in accordance with the terms of Letter of Offer. Such Eligible Equity Shareholders are required to send, among other details of their demat account to our company or the Registrar within six (6) months from allotment date, to get the Rights Equity Shares transferred in their the Demat Account. In case of non-receipt of demat account, our company shall conduct a sale of such Rights Equity shares lying in the demat suspense account on the floor of stock exchanges at the prevailing market price and remit the proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes and administrative and incidental charges) to the bank account mentioned by the resident eligible equity shareholder in their respective application forms and the form for which the application payment was made. For further details please refer to "Terms of Issue" on page number 165 of Letter of Offer.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

#### **DISCLAIMER CLAUSE OF BSE**

It is to be distinctively understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to page no. 161 of the letter of offer for the context of Disclaimer clause of BSE Limited. COMPANY LEAD MANAGER

70 years BHARAT BHUSHAN

**BHARAT BHUSHAN FINANCE &** COMMODITY BROKERS LIMITED Registered & Corporate Office: 503 Rohit House, 3, Tolstoy Marg, Central

Delhi, New Delhi, India-110001. Tel. No.: 011 49800900. Fax No.: 011-49800933; E-mail: corporate@bharatbhushan.com

Website: www.bbinvestments.in Contact Person: Mr. BaldevGarg CIN: L67120DL1992PLC049038

Date: 18 July, 2025

Place : New Delhi

SPA CAPITAL ADVISORS LIMITED

SEBI Rea. No.: INM 000010825 25, C - Block Community Centre,

Tel.: +91 11 4567 5500 E-mail: rightissue@spacapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@spagroupindia.com Website: www.spacapital.com

Contact Person: Gurpreet Kaur

Janak Puri, New Delhi - 110 058.

# ALANKIT ASSIGNMENTS LTD.

REGISTRAR TO THE ISSUE

Alankit Assignments Limited 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extn., New Delhi- 110055 Tel.: 011 -42541 234, 011-42541966 Fax: +91 11 2355 2001 **Investor Grievance:** bharatbhuhanrights@alankit.com email: bharatbhushanrights@alankit.com

**SEBI Regn. No.**: INR000002532

Website: www.rights.alankit.com Contact Person: Ms. Ritika Manghnani Investors may Contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue or Post-Issue related matters. All Grievances relating to the ASBA process may be addressed to the registrar to the issue, with a

copy to the SCSB, giving full details. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE. THE RIGHTS EQUITY SHARES, OR THE BUSNIESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Sd/-

Company Secretary & Compliance Officer

Mr. Baldev Garg

For and on behalf of BHARAT BHUSHAN FINANCE AND COMMODITY BROKERS LIMITED